



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2005 (ज्येष्ठ 21, 1927)  
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2005 (JYAISTHA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पत्र संख्या सीओ.डीटी. 14.02.000/एच-9937/2004-05 दि. 25 मई 2005 का अनुबंध

1 से 7 जनवरी 2005 की अवधि के लिए राजपत्र संख्या 1 हिन्दी भाष्य के संबंध में सुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	राजपत्र में छपे गए अनुसार	विष्णुनुसार सुद्धि करें
2.	2.	डी.एच.000054	डी.एच.000055

Annexure to Letter No. CO.DT.14.02.000/H-7637/2004-05 dated 7th January 2005

CORRIGENDUM in respect of English Version of Gazette No. 1 for the period (January 1—January 7, 2005)

Page No.	Line No.	As appeared in the Gazette	May be read as
39	20	4% National Defence Loan 1972	4½% National Defence Loan 1972
39	58	BY 01452	BY 014052

जे. एम. बावा  
सहायक प्रबंधक

## भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुबन्गी समूह

मुंबई, दिनांक 27 मई 2005

एसबीडी/क्र.2/2005--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निर्बन्धानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री एस. के. भट्टाचार्य को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ए. के. पुरवार

अध्यक्ष

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2005

सं. एन-15/13/11/2/93-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जून, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला संगरूर में राजस्व ग्राम बर्द्धवाल हदबस्त संख्या-92 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/11/3/2003-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जून, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील एवं जिला
1.	उच्ची मंगली	235	लुधियाना
2.	रामगढ	236	लुधियाना
3.	जन्डीयाली	225	लुधियाना
4.	बुधेवाल	187	लुधियाना
5.	कोहाड़ा	224	लुधियाना
6.	मानगढ़	223	लुधियाना
7.	हीरान	217	लुधियाना
8.	लाल कलां	337/338	लुधियाना
9.	भैरों मुन्ना	222	लुधियाना
10.	हाडीया	206	लुधियाना

एस. थॉमस

निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/11/4/2003-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जून, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त II विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला एवं तहसील लुधियाना में राजस्व ग्राम-आलमगीर हदबस्त संख्या-273 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. थॉमस  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/11/5/2003-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जून, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील एवं जिला
1.	गाहौर	143	लुधियाना
2.	बद्दोवाल	294	लुधियाना
3.	बाडेवाल	157	लुधियाना
4.	ईयाली खुर्द	153	लुधियाना
5.	ईयाली कलां	155	लुधियाना

एस. थॉमस  
निदेशक (यो. एवं वि.)

#### जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 के 53वें) की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार वांछित वर्ष 2002-2003 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

एस. नन्दक्योलयार  
वित्त अधिकारी

वार्षिक लेखा  
2002-2003

**जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय**  
**2002-2003 के दौरान प्राप्त अनुदान और किए गए खर्च का विवरण**  
**(भाग-वार)**

	भाग-1					भाग-2		भाग-3		भाग-4		भाग-5	
	अनुदान (योजनेतर) खाता, वि.अ.आ. से अनुदान					विकास (योजनागत) खाता		उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता		ऋण, जमा आदि का खाता		अध्ययतावृत्ति खाता	
अथ शेष (1.4.2002 को)	10,38,57,587	98,37,665	2,73,22,129	9,01,74,059	4,33,13,050							45,88,799	27,90,93,289
2002-2003 के दौरान	58,77,67,000	7,23,89,034	16,88,96,065	18,17,86,091	37,18,23,030							7,19,19,885	1,45,45,81,106
प्राप्तियाँ/वसूलियाँ/चापसी आदि योग	69,16,24,587	8,22,26,699	19,62,18,194	27,19,60,150	41,51,36,080							7,65,08,684	1,73,36,74,394
2002-2003 के दौरान अदायगियाँ/प्रेषणाएँ	54,28,96,207	5,59,01,569	12,79,64,454	15,69,32,070	38,15,40,653							5,86,58,341	1,32,38,93,294
31.3.2003 को अन्त शेष	14,87,28,380	2,63,25,130	6,82,53,740	11,50,28,080	3,35,95,427							1,78,50,343	40,97,81,100

## व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

प्राप्ति और अदायगो—लेखा (पृष्ठ— 1 से 46) पाँच भागों में, 1 से 5 तक विभक्त है। इनमें निम्नलिखित लेन—देन आते हैं :

1. अनुरक्षण (योजनेतर) खाता : विश्वविद्यालय के योजनेतर खातों से संबंधित प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा—जोखा तथा संबंधित प्राप्तियों का विवरण।
2. विकास (योजना) खाता : दसवीं पंच—वर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधानों में से विश्वविद्यालय के विकास पर होने वाले व्यय तथा उससे संबंधित प्राप्तियों का विवरण।
3. उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता : भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों, पीठों, वृत्तिदान, न्यास—निधियों आदि से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान और उनमें से किये गये व्यय का लेखा—जोखा।
4. ऋण, जमा आदि का खाता : ऋण, जमा आदि शीर्षों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियों और खर्चों का लेखा—जोखा।
5. अध्येतावृत्ति खाता : “कोई दिया गया एक समय” योजना के आधार पर शोध अध्येतावृत्ति के संबंध में प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा—जोखा

.....

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
राजस्व खाता		
अथ शेष —		
अग्रदाय	89,175	
हाथ रोकड़	11,076	
बैंक शेष —		
i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	10,37,57,336	
ii) विश्वविद्यालय प्राप्ति	98,37,665	11,36,95,252
I. अनुदान —		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
i) अनुरक्षण "एकमुश्त" अनुदान	57,77,67,000	
ii) भवनों की विशेष मरम्मत	1,00,00,000	58,77,67,000
II. छात्रों की फीस —		
i) शैक्षणिक	1,14,01,332	
ii) परीक्षा	69,370	
iii) अन्य	66,711	1,15,37,413
III. छात्रावास की फीस		6,89,485
IV. भूमि भवन तथा अन्य सम्पत्ति से आय —		
i) कर्मचारी आवास-गृह का किराया	24,30,956	
ii) अतिथि-गृह का किराया	25,30,630	
iii) दुकानों का किराया	32,25,900	
iv) स्टेट बैंक, आई.सी.एच.आर. एवं पोस्ट ऑफिस आदि से किराया	6,63,497	
v) गोमती अतिथि-गृह	13,60,973	1,02,11,956
V. प्रकाशन — (रॉयलटीज)		1,68,231
VI. विविध		
i) निविदा पत्रों तथा समाचार पत्रों की बिक्री आदि	1,06,288	
ii) सी.जी.एच.एस. की वसूलियाँ	12,37,515	
iii) अन्य प्राप्ति	1,94,65,387	2,08,09,190
VII. प्रवेश-पत्रों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क		1,98,63,341

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)

## 1. प्रशासन —

i) कुलपति का कार्यालय	20,69,221	
ii) कुलदेशिक का कार्यालय	20,12,085	
iii) कुलसचिव का कार्यालय	2,32,80,736	
iv) वित्त एवं लेखा विभाग (जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा भी शामिल है)	1,54,60,991	
v) डीन के प्रशासन कार्यालय	32,17,390	4,60,40,423

## 2. सामान्य सेवाएं तथा सामान्य प्रभार —

## 1. यात्रा भत्ता —

i) ई.सी./ए.सी./एफ.सी./कोर्ट के सदस्य	1,46,464
ii) चयन समिति और अध्ययन बोर्ड आदि के सदस्य	3,03,164
iii) विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्य	5,48,632
iv) प्रथम नियुक्ति पर तथा साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को प्रदत्त यात्रा भत्ता	2,26,859
	<u>12,25,119</u>

2. डाक व तार	21,44,387
3. लेखन सामग्री की खरीद	14,27,055
4. टेलीफोन (अनावर्ती)	43,26,945
5. (क) टंकण यंत्रों, डुप्लीकेटर्स, जीरोक्स मशीन आदि की मरम्मत, ऑयलिंग व सफाई	2,27,086
(ख) कमरे/वाटरकूलर/हीटर/पंखे/ए.सी. आदि की मरम्मत करना	3,36,414
6. फर्नीचर की मरम्मत/पालिश करना	5,55,210
7. विद्युत प्रभार	6,45,58,450
8. जल प्रभार	72,79,589
9. स्टाफ कार का अनुरक्षण	10 17,281
10. वर्दी	17,99,755
11. रजिस्ट्रों और फार्मों की छपाई	9,99,044
12. आतिथ्य सत्कार	2,09,386
13. विज्ञापन	3,68,182
14. एन.ए.ए. परिसर का किराया	11,00,664
15. विधि (कानून) संबंधी खर्च	3,91,156
16. दरें और कर	740
17. प्रशासन भवन के कंप्यूटरों का अनुरक्षण	81,919
18. सफाई खर्च	12,00,936

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी--लेखा  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रुपयों में हैं)



## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

## अदायगियाँ

(आंकड़े रुपये में हैं)

19. अन्य आकस्मिकताएं	26,88,390	
अनावर्ती	37,464	
20. सफाई सामग्री की खरीद	3,99,790	9,23,74,992

## 3. शैक्षिक कार्यक्रम -

## क. संस्थान -

## I. सामाजिक विज्ञान संस्थान -

i) वेतन	4,21,04,121
ii) अन्य प्रभार	11,58,728
iii) अनावर्ती	3,750
iv) अनावर्ती (पुस्तकें)	23,514
v) अनावर्ती (अग्रिम)	3,38,786

## II. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान -

i) वेतन	2,62,82,355
ii) अन्य प्रभार	9,13,279
iii) अनावर्ती	1,23,906
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000

## III. भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान -

i) वेतन	4,09,24,962
ii) अन्य प्रभार	5,33,919
iii) अनावर्ती	69,618
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	79,660

## IV. जीवन विज्ञान संस्थान -

i) वेतन	1,25,69,595
ii) अन्य प्रभार	27,64,739
iii) अनावर्ती	6,92,394
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	7,600

## V. पर्यावरण विज्ञान संस्थान -

i) वेतन	1,04,34,731
ii) अन्य प्रभार	7,20,151
iii) अनावर्ती	2,44,912
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	3,66,918

## VI. कंप्यूटर और पद्धति विज्ञान संस्थान -

i) वेतन	70,10,764
ii) अन्य प्रभार	2,25,086
iii) अनावर्ती	1,96,813
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	2,35,420

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 3. शैक्षिक कार्यक्रम — जारी .....

क. संस्थान —

## VII. भौतिक विज्ञान संस्थान —

i) वेतन	60,79,456
ii) अन्य प्रभार	4,58,325
iii) अनावर्ती	1,93,810
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	41,844

## VIII. कला और सौन्दर्य-शास्त्र संस्थान —

i) वेतन	15,85,559
ii) अन्य प्रभार	1,04,239
iv) अनावर्ती	1,94,250

## IX. कंप्यूटर केन्द्र —

अन्य प्रभार	3,450
-------------	-------

## X. विधि और अभिशासन अध्ययन केन्द्र

i) वेतन	10,63,695
ii) अन्य प्रभार	38,946
iii) अनावर्ती	5,44,156
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000

## XI. आणविक चिकित्साशास्त्र विशेष केन्द्र

i) वेतन	10,71,629
ii) अन्य प्रभार	11,96,179
iii) अनावर्ती	14,198
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000

## XII. सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान

i) वेतन	1,15,017
ii) अन्य प्रभार	6,55,011
iii) अनावर्ती	3,19,070

## XIII. संस्कृत अध्ययन केन्द्र

i) वेतन	10,36,920
ii) अन्य प्रभार	81,887
iii) अनावर्ती	1,71,171
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	2,35,769

---

16,37,52,302

---

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## ख. केन्द्रीकृत सुविधाएं -

## I. विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केन्द्र की

## स्थापना (यूसिक) --

i) वेतन	23,13,384
ii) अन्य प्रभार	51,863
iii) अनावर्ती (अग्रिम)	10,000

## II. प्राणी-गृह -

i) वेतन	10,44,542
ii) अन्य प्रभार	3,96,036

## III. वानस्पति उद्यान -

i) वेतन	4,57,494
ii) अन्य प्रभार	36,580

## IV. संचार और सूचना सेवाएं केन्द्र -

i) वेतन	16,32,747
ii) अन्य प्रभार	25,579

## V. केन्द्रीय सुविधाएं का अनुरक्षण - उपस्कर

—

---

59,68,225

---

## ग. अन्य एकल योजनाएं -

## I. जैव प्रौद्योगिकी में बहुविषयक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम -

i) वेतन	39,13,565
ii) अन्य प्रभार	3,67,049
iii) अनावर्ती	1,33,683
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	92,232

## II. जैव-सूचना विज्ञान केन्द्र

i) वेतन	10,13,547
---------	-----------

## III. प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा व विस्तार यूनिट -

i) वेतन	15,86,305
---------	-----------

## IV. विशेष सहायता कार्यक्रम -

## (क) सामाजिक विज्ञान संस्थान -

i) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र वेतन	7,27,879 *
ii) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र वेतन	11,43,476

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
ग. अन्य एकल योजनाएं — जारी .....		
iii) जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र वेतन	3,43,177	
iv) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र वेतन	2,32,396	
(ख) जीवन विज्ञान संस्थान वेतन	2,35,205	
	<b>97,58,516</b>	
घ. अन्य विविध शैक्षिक गतिविधियाँ	88,99,604	
अनावर्ती	24,700	18,84,03,347
4. परीक्षाएँ		14,66,064
5. पुस्तकालय —		
i) वेतन	2,04,93,188	
ii) पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,44,22,360	
iii) पत्रिकाएं और समाचार-पत्र	1,48,135	
iv) अन्य प्रभार	3,28,630	
v) अनावर्ती	3,62,680	3,57,54,993
6. छात्र सुविधाएं —		
i) डीन (छात्र)		
(क) वेतन	17,81,947	
(ख) अन्य प्रभार	46,569	
ii) शारीरिक शिक्षण और खेलकूद गतिविधियां व खेल —		
(क) वेतन	11,59,932	
(ख) अन्य प्रभार	4,85,770	
(ग) अनावर्ती (अग्रिम)	47,810	
iii) छात्र स्वास्थ्य केन्द्र —		
(क) वेतन	34,50,195	
(ख) अन्य प्रभार	18,38,209	
vi) अन्य सुविधाएं — छात्रों की बसें		
(क) वेतन	95,753	
(ख) अन्य प्रभार	1,48,599	
(ग) अनावर्ती	25,840	90,80,624

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)



**2002--2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा**  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपों में हैं)
7. छात्रवृत्तियाँ	30,31,830
8. छात्रावास -	
(क) वेतन	2,13,28,110
(ख) अन्य प्रभार	14,42,404
(ग) अनावर्ती	69,664
(घ) अनावर्ती (अग्रिम)	2,80,896
	2,31,21,074
9. प्रकाशन -	
(क) वेतन	5,71,008
(ख) अन्य प्रभार	8,19,633
	13,90,641
10. अन्य विभाग -	
क. इंजीनियरी विभाग -	
i) वेतन	2,33,39,813
ii) संपदा का रखरखाव	1,12,78,974
iii) अनावर्ती (अग्रिम)	11,62,288
iv) छोटे-मोटे काम	1,92,788
v) अनुरक्षण और जल पम्प का प्रचालन	12,500
vi) गाड़ियों का रख-रखाव	1,12,857
vii) अन्य प्रभार	1,36,178
	<b>3,52,35,398</b>
ख. सफाई अमला (वेतन)	1,70,82,416
ग. सुरक्षा अमला (वेतन)	1,09,06,716
घ. संपदा कार्यालय (वेतन)	55,34,596
च. गोमती अतिथि-गृह -	
i) वेतन	3,94,710
ii) अन्य प्रभार	1,82,638
iii) अनावर्ती	27,150
छ. अरावली/अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि-गृह और संकाय क्लब	
क) आवर्ती	8,22,009
ख) अनावर्ती	2,99,816
	7,04,85,249
11. विविध -	
क. विभिन्न शैक्षिक निकायों/संस्थाओं को प्रदत्त सदस्यता और अंशदान	1,60,696
ख. प्रयोगशाला बीमा-किस्त	758

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-1, अनुगृह्यण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
11. विविध – जारी ...		
ग. प्रशासन कार्यालयों तथा संकायों के लिए फर्नीचर तथा सुविधाएं	37,90,977	
अग्रिम	5,84,100	
घ. प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर	—	
ङ. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा संकाय कार्यालयों के लिए अन्य उपस्कर तथा सुविधाएं –	15,74,520	
अग्रिम	1,74,000	
च. डेजर्ट/वाटर कूलरों और एयर कंडीशन	2,08,364	
अग्रिम	9,16,072	
छ. अन्य मदें –		
i) छुट्टी पर यात्रा में रियायतें	1,72,559	
ii) कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (सी.जी.एच.एस. का अंशदान)	87,39,319	
iii) समयोपरि भत्ता	19,99,536	
iv) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/बाल-शिक्षा भत्ते हेतु अंशदान	63,955	
v) दीक्षांत समारोह पर व्यय और शैक्षिक रोब्स	—	
vi) कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	1,00,000	
vii) त्योहार अग्रिम	6,79,500	
viii) दैनिक वेतन कर्मचारी	41,40,419	
ix) कर्मचारियों को प्रदत्त मानदेय	3,83,689	
x) स्टाफ के लिए विशेष व्याख्यान और प्रशिक्षण	13,981	
xi) बोनस	28,42,358	
xii) संकाय क्लब को अनुदान	10,000	
xiii) उद्यान का अनुरक्षण	5,27,143	
xiv) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जेंडर संवेदनशीलता समिति	21,374	
xv) निजी सुरक्षा	88,50,534	3,59,53,854
12. भविष्य निधि खाता और पेंशन –		
i) भविष्य-निधि अंशदान	26,93,547	
ii) सामूहिक बीमा जमा	—	
iii) पेंशन	3,19,63,249	
iv) उपदान	1,50,67,083	
v) पेंशन का कम्प्यूटिड मूल्य	1,39,78,329	
vi) छुट्टियों का नकदीकरण	91,20,356	7,28,22,564

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## VIII. अर्जित ब्याज -

i) निवेश पर	8,16,806	
ii) बचत बैंक खाता पर	17,05,762	25,22,568

## IX. वसूलियां/प्राप्तियां/वापसियां -

त्योहारों पर अग्रिम		7,05,850
---------------------	--	----------

कार्पस निधि खाता

58,81,000

कुल योग

77,38,51,286

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-1. अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

13. ऐरियर का भुगतान

(पांचवें वेतन आयोग के कारण वेतनमानों में संशोधन)

1,88,61,045

योग

59,87,86,700

14. प्रेषणाएं —

पिछले वर्ष की प्राप्तियों/वसूलियों की प्रेषणाएं

अदायगी की अवितरित राशि

11,076

अंत शेष —

i) अग्रदाय

1,00,800

ii) हाथ रोकड़

—

iii) बैंक शेष —

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
से अनुदान

14,86,27,580

ख) विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ

2,63,25,130

17,50,53,510

कुल योग

77,38,51,286

**2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
अथ शेष —		
अग्रदाय	9,000	
हाथ रोकड़	—	
बैंक रोकड़	2,73,13,129	2,73,22,129
1. अनुदान —		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग —		
(1) आवर्ती अनुदान	38,50,807	
(2) निम्नलिखित के लिए अनावर्ती अनुदान —		
क. विश्वविद्यालय परिसर का विकास	6,93,00,000	
ख. अन्य पूँजीगत अनुदान	14,37,521	7,45,88,328
ख. अनुदान निवेश पर अर्जित ब्याज		78,28,382
ग. अन्य संस्थाएँ —		
1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैव प्रौद्योगिकी विभाग)		
क. आवर्ती	41,32,000	
ख. अनावर्ती	7,46,000	48,78,000
2) दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)		
क. आवर्ती		1,36,111
2. निम्नलिखित से संबंधित विविध प्राप्तियाँ/ वसूलियाँ/वापसी/समायोजन —		
अनावर्ती —		
(1) उपस्कर	2,42,585	
(2) बायो कंटेनमेंट सुविधाओं का निर्माण	31,657	2,74,242
3. अर्जित ब्याज —		
(बचत बैंक खाता)		10,04,847
4. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा — (प्रवेश फार्मों की बिक्री/परीक्षा शुल्क आदि)		84,69,555

**2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा**  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रुपयों में हैं)	
आवर्ती -		
1. शैक्षणिक कार्यक्रम -		
क. संस्थान		
I. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान -		
क. खाड़ी अध्ययन		
i) अन्य प्रभार	60,822	
ii) छात्रवृत्तियाँ/अध्येतावृत्तियाँ	1,10,335	
ख. सोवियत अध्ययन		
i) वेतन (रिसर्च एसोसिएट)	3,59,041	
ii) अन्य प्रभार -		
आवर्ती	87,252	
अनावर्ती	34,575	
iii) छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति	1,39,995	
II. विधि और अभिशासन अध्ययन संस्थान -		
i) वेतन (शिक्षण स्टाफ)	3,14,482	
III. महिला अध्ययन केन्द्र -		
अन्य प्रभार	2,60,728	
IV. संस्कृत अध्ययन केन्द्र		
वेतन	5,09,066	
V. सामाजिक विज्ञान संस्थान		
वेतन (शिक्षण स्टाफ)	3,18,839	21,95,135
ख. विविध अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ -		
I. एकेडमिक स्टाफ कालेज -		
i) वेतन	18,19,269	
ii) अन्य प्रभार	59,00,342	
iii) अनावर्ती	29,490	
iv) अनावर्ती (फर्नीचर)	1,76,941	79,26,042
II. विशेष सहायता विभाग कार्यक्रम -		
(डी.एस.ए.) सा.वि.सं.		
क. सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र		
अन्य प्रभार	2,48,835	
ख. ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र		
अन्य प्रभार	2,29,232	

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)



**2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा**  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ आवर्ती - जारी ....		(आंकड़े रूपयों में हैं)
ग. जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र		
i) वेतन	1,73,729	
ii) अन्य प्रभार	3,69,320	
घ. आर्थिक अध्ययन और नियोजन केन्द्र		
i) अन्य प्रभार	2,100	
च. क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र		
i) अन्य प्रभार	1,99,691	
छ. जीवन विज्ञान संस्थान		
i) अन्य प्रभार	3,00,245	15,43,152
III. डी.आर.एस. स्तर की वि.वि.अ.आ. की सहायता (विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत) -		
क. भौतिक विज्ञान संस्थान -		
i) अन्य प्रभार	1,66,656	
ii) लेजर लैब का अद्यतन/संवर्धन और नवीकरण -		
आवर्ती	48,056	
अनावर्ती	2,36,034	
अनावर्ती (अग्रिम)	31,845	
ख. पर्यावरण विज्ञान संस्थान -		
i) वेतन	1,01,685	
ii) अन्य प्रभार	1,49,532	7,33,808
ग. अन्य एकल योजनाएं -		
I. जैव प्रौद्योगिकी में बहुआयामी शिक्षण और प्रशिक्षण का विकास -		
i) वेतन	2,21,040	
ii) अन्य प्रभार	4,52,071	
iii) अनावर्ती	2,83,474	
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,43,500	
v) छात्रवृत्ति/रिसर्च एसोसिएटशिप	2,31,490	13,31,575
II. बी.आई.सी. - बायोइनफार्मेटिक्स -		
i) अन्य प्रभार	7,08,933	
ii) अनावृत्ति	4,55,516	

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2 विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ आवर्ती - जारी ....	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
-	मोलिक्युलर माडलिंग के लिए इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम पर राष्ट्रीय सुविधा	
i)	वेतन	1,18,486
ii)	अन्य प्रभार - अनावर्ती	6,81,946
-	मिरर साइट - जै.सू.वि.-IV	
i)	अन्य प्रभार	54,992
-	जैव सूचना विज्ञान में एक वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम	
i)	अन्य प्रभार	3,23,829
ii)	अनावर्ती -	2,71,122
		26,14,824
III.	कासिस्ट कार्यक्रम -	
क.	भौतिक विज्ञान संस्थान	
i)	अन्य प्रभार	9,670
ii)	अनावर्ती	8,10,917
ख.	पर्यावरण विज्ञान संस्थान	
i)	अन्य प्रभार	1,68,910
ii)	अनावर्ती	22,27,055
		32,16,552
IV.	इंफिबलनेट प्रोग्राम (पुस्तकालय)	
i)	वेतन	4,000
ii)	अन्य प्रभार	3,983
		7,983
V.	एच.आई.वी./एड्स के लिए परामर्श केन्द्र (स्वास्थ्य केंद्र)	
i)	अन्य प्रभार	1,32,174
VI.	योगा केन्द्र की स्थापना	
i)	वेतन	1,80,000
ii)	अन्य प्रभार	3,967
		1,83,967
VII.	जे.एन.यू. को टी.ई.पी.एस.ई./एच.ई.पी.एस.एन. योजना के तहत वि.अ.आ. की सहायता	
i)	अन्य प्रभार	26,631
ii)	अनावर्ती	26,000
		52,631
VIII.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण कोर्स	
i)	अन्य प्रभार	12,762
ii)	अनावर्ती	2,52,010
		2,64,772
IX.	अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ का विस्तार	
i)	अन्य प्रभार	54,670

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)
आवर्ती - जारी ....	
X. पोटेंशल फार एक्सलेन्स (वि.अ.आ.)	38,96,953
3. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा	
i) अन्य प्रभार	19,18,581
योग - क. राजस्व खाता	2,60,72,819

## ख. पूंजीगत खाता -

क. विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण -

## I. संस्थान भवन -

i) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र (वि.स.वि. कार्यक्रम)	32,475	
ii) भौतिक विज्ञान संस्थान भवन (डी.आर.एस./एस.ए.पी.)	2,377	
iii) कॉसिस्ट - भौतिक विज्ञान संस्थान	29,665	
iv) विज्ञान केन्द्र का निर्माण	5,00,000	
v) विधि और अभिशासन अध्ययन केन्द्र	31,00,000	
vi) अकादमिक स्टाफ कालेज	35,00,000	71,64,517

## II. आवासीय भवन -

i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण (अग्रिम)	30,00,000	
ii) अ.ज.जा. के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	70,00,000	
iii) अ.ज.जा. की छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण	4,97,170	
iv) पोस्ट डाक्टरल शोध छात्रों के लिए छात्रावास (फेज-2) का निर्माण	15,21,632	1,20,18,802

## III. विविध भवन -

i) खेल-कूद परिसर	21,680	
ii) स्वास्थ्य केन्द्र भवन का विस्तार	2,49,694	
iii) बायो-कनटेनमेंट सुविधा का निर्माण (प्रायोगिक संक्रमिक प्राणियों को रखने हेतु)	13,488	2,84,862

2002—2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा  
भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रुपये में हैं)

**2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
क. विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण — जारी ....		
IV. बाह्य सेवाएं —		
i) वि.अ.आ. की एचईपीएसएन की योजना के तहत विकलांग छात्रों के लिए ढलानदार रास्तों का निर्माण —	88,757	
ii) केन्द्रीय यन्त्रीकरण सुविधा कक्षों में एल्युमिनियम पार्टिशन और टाइल सहित आर.सी.सी. प्लेटफार्म (पर्यावरण विज्ञान संस्थान कॉसिस्ट)	84,920	1,73,677
योग—क— विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण		1,96,41,858
ख. अन्य पूँजीगत व्यय —		
I. उपस्कर —		
क. संस्थान —		
i) संस्कृत अध्ययन केन्द्र *	29,675	
ii) भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान (भाषा प्रयोगशाला)	5,66,191	
iii) जीवन विज्ञान संस्थान	2,676	
iv) आणविक चिकित्सा—शास्त्र विशेष केन्द्र	1,596	
v) सोवियत अध्ययन	32,230	
vi) महिला अध्ययन योजना	9,348	6,41,716
ख. प्रशासन		49,807
ग. स्वास्थ्य केन्द्र		4,533
घ. विशिष्टता के लिए योग्य		2,22,06,379
च. कोसिस्ट कार्यक्रम —		
पर्यावरण विज्ञान संस्थान		29,99,169
छ. विशेष सहायता कार्यक्रम विभाग (डी.एस.ए.) —		
i) जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र	32,870	
ii) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	3,350	
iii) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	31,100	
iv) जीवन विज्ञान संस्थान	11,07,080	11,74,400

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)



## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आकड़े रूपयों में हैं)	
ज. डी.आर.एस./एस.ए.पी. स्तर की विश्वद्यालय अनुदान आयोग की सहायता -		
i) पर्यावरण विज्ञान संस्थान	5,71,308	
अग्रिम	1,12,896	6,84,204
झ. कंप्यूटर केन्द्र का अद्यतन/संवर्धन		9,67,703
ञ. जैव सूचना केन्द्र (बी.आई.सी.) - (उपस्कर)		90,977
योग - 1 - उपस्कर		2,88,18,888
2. पुस्तकें और पत्रिकाएं -		
i) केन्द्रीय पुस्तकालय	18,91,734	
ii) विशिष्टता के लिए योग्य (वि.अ.आ.)	75,61,215	
iii) जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	1,34,102	
iv) खाड़ी अध्ययन	97,737	
v) सोवियत अध्ययन	1,25,234	
vi) महिला अध्ययन योजना	49,093	
vii) डी.एस.ए./डी.आर.एस./एस.ए.पी. कार्यक्रम -		
क. सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	2,56,466	
ख. ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र	2,00,774	
ग. जाकिर हुसैन शैक्षणिक अध्ययन केन्द्र	99,141	
घ. जीवन विज्ञान संस्थान	1,02,593	
च. भौतिक विज्ञान संस्थान	31,949	
viii) कोसिस्ट -		
भौतिक विज्ञान संस्थान	2,04,445	
ix) जैव-सूचना विज्ञान केन्द्र (बी.आई.सी.)	20,776	
x) जै.सू.वि. केन्द्र - एक-वर्षीय डिप्लोमा कोर्स	65,364	
xi) अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोर्स	70,681	1,09,11,304
3. फर्नीचर -		
i) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र		19,585
योग-ख- अन्य पूंजीगत व्यय		3,97,49,777

**2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा**  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
5. विविध प्राप्तियां		
i) जैव सूचना विज्ञान केन्द्र - (जैव-सूचना विज्ञान में अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम)	5,000	
ii) अकादमिक स्टाफ कालेज (प्रतिभागी पंजीकरण शुल्क)	3,15,500	3,20,500
6. निवेश भुनाए		7,13,96,100

कुल योग

19,62,18,194

2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रुपये में हैं)
ख. अन्य पूँजीगत व्यय - जारी ...	
योग- खंड (क+ख)	8,54,64,454
निधियों का निवेश	4,25,00,000
अंत शेष -	
i) अग्रदाय	5,000
ii) बैंक रोकड़	6,82,48,739
iii) हाथ रोकड़	1

कुल योग

19,62,18,194

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ

(आँकड़े रुपये में हैं)

अथ शेष —

उद्दिष्ट निधि खाता —

बैंक	8,96,43,262	
जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता —		
बैंक	1,37,070	
एक्विजम बैंक लाइब्रेरी खाता	1,97,123	
कल्याणकारी राज्य पद्धति	1,90,048	
एस.बी.आई. शोध एवं विकास निधि खाता	6,556	9,01,74,059
विशिष्ट प्रयोजन —		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		23,92,678
ख. भारत सरकार —		
i) जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट		6,004
ii) अन्य परियोजनाएं		6,03,40,119
ग. विदेशी संस्थाएं/सरकारें —		
i) स्विस् विकास और निगम एजेन्सी		4,29,000
ii) पॉटस स्मारक फाउंडेशन		2,043
iii) इण्डो-यू.एस. परियोजना (यू.एस.डी.ए.)		1,09,768
iv) फोर्ड फाउंडेशन		1,96,36,085
v) बाक्स वेगन		6,63,837
vi) यू.एन.डी.पी.—टी.आई.एफ.ए.सी.		57,500
vii) यूरोपीय आर्थिक आयोग		12,86,737
viii) नामिकीय अस्त्र		48,038
ix) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर गठित भारतीय अनुसंधान परिषद्		10,23,257
x) वेल्कम ट्रस्ट		25,88,403
xi) यूनेस्को		42,13,336
xii) ओमान सल्तनत का दूतावास (अरबी/सरकारी अध्ययन)		9,49,352
xiii) इण्डो-फ्रेंच (आई.एफ.सी.पी.ए.आर.)		4,71,000
xiv) पारिस्थितिकी और जन विज्ञान केन्द्र		3,18,335
xv) इटली दूतावास		1,80,684
xvi) अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर शोध की उभरती प्रवृत्तियां		3,02,427
xvii) ससेक्स विश्वविद्यालय		1,47,138
xviii) कोरिया फाउंडेशन		1,00,240

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

अदायगियाँ	(ऑकडे रुपयों में हैं)	
1. विशिष्ट प्रयोजन —		
क. विश्वविद्याय अनुदान आयोग —		
क. वेतन	7,52,699	
ख. अन्य प्रभार	17,73,177	
ग. अनावर्ती	1,58,677	
घ. अनावर्ती (पुस्तकें)	57,303	27,41,856
ख. भारत सरकार —		
i) जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट — आवृत्ति		—
ii) अन्य परियोजनाएं —		
क. वेतन	58,61,534	
ख. अन्य प्रभार	2,37,09,809	
ग. अनावर्ती	98,91,272	
घ. अग्रिम	76,31,420	4,70,94,035
ग. विदेशी निकाय/सरकारें —		
फोर्ड फाउंडेशन —		
क. वेतन	3,64,400	
ख. अन्य प्रभार	18,00,041	
ग. अनावर्ती (पुस्तकें)	15,417	
घ. अनावर्ती	4,69,980	26,49,838
यूनेस्को —		
क. वेतन	1,90,694	
ख. अन्य प्रभार	2,81,138	
ग. अनावर्ती	41,000	5,12,832
यूरोपीय आर्थिक आयोग —		
क. वेतन	1,44,032	
ख. अन्य प्रभार	8,11,391	
ग. अनावर्ती	15,15,244	24,70,667
शास्त्री-इण्डो कनाडियन संस्थान		
क. वेतन	28,530	
ख. अन्य प्रभार	2,13,269	2,41,799
आस्ट्रेलियाई उच्चायोग		30,109
इटली दूतावास		1,99,354
वेल्कम ट्रस्ट		
क. आवर्ती	7,64,771	
ख. अनावर्ती	19,54,836	
ग. अग्रिम	1,46,640	28,66,247

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ	(ऑकड़े रूपयों में हैं)
ग. विदेशी संस्थाएं/सरकारें — जारी ...	
xix) विदेशी मामले और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कनाडियन विभाग	3,27,317
xx) शास्त्री इण्डो-कनेडियन संस्थान	2,45,000
xxi) अन्तर्राष्ट्रीय आद्य नीति अनुसंधान संस्थान	35,000
घ. अन्य संस्थाएं —	
i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	22,67,147
ii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	9,06,393
iii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	1,13,86,986
iv) अन्तर विश्वविद्यालय संघ	58,256
v) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	15,000
vi) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	45,000
vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	2,40,000
viii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	17,47,243
ix) प्रशासनिक अतिरिक्त शीर्ष प्रभार	54,17,105
x) भारतीय पुनर्वास परिषद	35,000
xi) ग्लेशियर अनुसंधान समूह	5,000
xii) श्री वेंकटेश्वर कालेज	60,000
xiii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद	16,250
xiv) मद्रास अर्थशास्त्र संस्थान	2,13,605
xv) नाभिकीय अणु जीवन विज्ञान पर सम्मेलन	27,000
xvi) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	67,000
xvii) टाटा शिक्षा ट्रस्ट	26,00,000
xviii) मेसर्स शासेयन केमिकल्स ड्रग्स लिमिटेड	5,42,125
xix) मेसर्स शांता बायोटेक्निक्स प्रा.लि.	4,66,666
xx) विनरॉक नेटकॉम	7,82,304
xxi) टी.ए.आर.आई. (पन्द्रहवीं जैनेटिक कांग्रेस)	50,000
xxii) नवीकरण और विकास केन्द्र सोसाइटी	2,50,000
xxiii) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	2,62,780
xxiv) पावर वित्त निगम	39,084
xxv) पांडिचेरी सरकार	1,28,800
xxvi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	15,50,000

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## अदायगियाँ

(आँकड़े रूपयों में हैं)

## ग. विदेशी निकाय/सरकारें - जारी ...

## फ्रांस दूतावास -

क. आवर्ती	46,129	
ख. अनावर्ती	16,518	
ग. अनावर्ती (फर्नीचर)	9,331	71,978

बाक्स वेगन 8,02,619

रोग नियन्त्रण केन्द्र 4,39,827

बालश्रम सामाजिक समावेश 33,433

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान 1,45,000

ससेक्स विश्वविद्यालय 1,47,138

वाशिंगटन विश्वविद्यालय 36,803

## कोरियाई फाउंडेशन

क. वेतन	2,27,148	
ख. अन्य प्रभार	56,250	2,83,398

आर्थिक सम्बन्धों पर भारतीय अनुसंधान परिषद् 7,10,458

## वर्ल्ड टेलीविजन ब्राडकास्टिंग

क. आवर्ती	27,521	
ख. अनावर्ती	2,44,908	2,72,429

स्विस एजेन्सी फार डिवलपमेंट ऐंड कारपोरेशन 2,66,357

सेन्टर आफ इकोलॉजी एण्ड हाइड्रोलॉजी 2,08,044

यू.एन.डी.पी. 39,072

कनाडा उच्चायोग 3,42,551

इण्टरनेशनल इमर्जिंग ट्रेड्स आफ कैंसर रिसर्च 5,06,071

इन्सटीट्यूट आफ न्युक्लियर वेपन्स 36,180

## यूनिफेम -

क. आवर्ती	4,99,555	
ख. अनावर्ती	41,000	5,40,555

## घ. अन्य निकाय -

## i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् -

क. वेतन	8,46,737	
ख. अन्य प्रभार	19,86,479	
ग. अनावर्ती	1,74,126	30,07,342

## ii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् -

क. वेतन	5,53,093	
ख. अन्य प्रभार	3,63,430	9,16,523

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ	(ऑकड़े रूप्यों में हैं)
II. अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ —	
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	11,19,426
ख. भारत सरकार	93,54,641
ग. राज्य सरकार	9,40,679
घ. अन्य निकाय —	
i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	1,05,83,841
ii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	22,82,675
iii) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	10,61,600
iv) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	5,70,356
v) रोटरी शिक्षा प्रतिष्ठान	1,800
vi) प्रधानमंत्री राहत कोष	1,800
vii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	52,560
viii) जवाहर भवन ट्रस्ट	1,20,000
ix) बायो पार्क प्रोग्राम	45,000
x) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	80,865
xi) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	10,120
xii) सुचान नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया	4,74,388
III. पुरस्कार और वृत्तिदान —	
1) अर्जित ब्याज	26,60,112
2) वृत्तिदान	12,96,384
IV. अन्य प्राप्ति —	
क. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम —	
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन	15,09,544
ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध विज्ञानी	49,80,497
ग. निवेश पर अर्जित ब्याज —	
1) प्रशासनिक शीर्ष प्रभार से	46,667
2) उद्दिष्ट निधि खाता से	24,27,119
3) बचत बैंक खाता (ई. एम. एफ. खाता) पर अर्जित ब्याज	2,19,370
5. एक्जिम बैंक लाइब्रेरी खाता/कल्याणकारी राज्य व्यवस्था डिवलपमेंट एंड चैलेंज खाता —	
बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	16,056



## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## अदायगियाँ

(आँकड़े रूपों में हैं)

## घ. अन्य निकाय — जारी ...

iii)	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद —		
	क. वेतन	7,26,321	
	ख. अन्य प्रभार	35,25,134	
	ग. अनावर्ती	43,08,958	85,60,413
iv)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद		36,000
v)	भारतीय पुनर्वास परिषद		35,000
vi)	ऊपरी शीर्ष प्रभार से भुगतान —		
	क. वेतन	35,704	
	ख. अन्य प्रभार	12,53,112	
	ग. अनुरक्षण खाता	1,15,00,000	1,27,88,816
vii)	विकास अध्ययन संस्थान		28,830
viii)	भारतीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद		16,188
ix)	पैनासिया बायोटेक परामर्शी परियोजना		44,242
x)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड		1,85,030
xi)	पॉवर वित्त निगम		37,000
xii)	अन्तर विश्वविद्यालय संकाय		79,783
xiii)	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना —		
	क. वेतन	4,60,761	
	ख. अन्य प्रभार	20,31,275	
	ग. अनावर्ती	8,65,437	33,57,473
xiv)	पांडिचेरी सरकार		14,730
xv)	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड		11,024
xvi)	श्रीवेंकटेश्वर कालेज		25,000
xvii)	नवीकरण और विकास केन्द्र सोसाइटी		1,52,385
xviii)	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी		20,214
xix)	विनरॉक नेटवर्क		
	क. वेतन	1,44,660	
	ख. अन्य प्रभार	5,04,966	6,49,626
xx)	कार्यशाला (प्राइवेट)		2,580
xxi)	मद्रास अर्थशास्त्र संस्थान		2,10,051
xxii)	औद्योगिक परियोजना		1,97,782
xxiii)	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		7,160
xxiv)	डाबर रिसर्च फाउन्डेशन		5,29,968
xxv)	शेसियन केमिकल्स एण्ड ड्रग लिमिटेड		95,861
xxvi)	प्रो. एस.आई. हसनैन (संगोष्ठी)		40,000
xxvii)	डॉ. एम.सी. पॉल (संगोष्ठी)		14,053

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ

(आँकड़े रूप्यों में हैं)

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## अदायगियाँ

(आँकड़े रूप्यों में हैं)

## II. अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ -

क.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	7,70,493
ख.	भारत सरकार	87,18,156
ग.	राज्य सरकारें	7,72,953
घ.	अन्य निकाय -	
i)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	20,13,048
ii)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	81,59,816
iii)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	9,92,101
iv)	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	8,03,096
v)	जवाहर भवन न्यास	1,27,193
vi)	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी	15,000
vii)	प्रधानमंत्री राहत कोष	1,425
viii)	रोटरी फाउन्डेशन	2,700
ix)	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	77,707
x)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	52,560
xi)	जी. पार्थासारथी (अ.जा./अ.ज.जा.)	76,661
xii)	विश्व स्वास्थ्य संगठन	93,900
xiii)	सुंचान नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया (दु कार्पस फन्ड एकाउन्ट)	11,06,140
xiv)	राष्ट्रीय सेवा योजना	45,846
xv)	बायो. पार्क कार्यक्रम	10,000
xvi)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	10,120

## III. पुरस्कार और वृत्तिदान -

i)	जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसरशिप (पर्यावरण विधि पर चेयर)	77,945
ii)	एम.कै.जे. थावराज स्मारक ट्रस्ट	17,331
iii)	जूही प्रसाद पुरस्कार	2,000
iv)	डा. रफेल फर्नांडीज पुरस्कार (सी.पी.एस. की छात्रवृत्ति)	36,000
v)	डा. अम्बेडकर चेयर -	
क.	वेतन	2,90,159
ख.	अन्य प्रभार	39,884
vi)	आर.बी.आई. चेयर	2,35,917
vii)	राजीव गाँधी फाउन्डेशन	1,84,666
viii)	कमा. एच.एल. परवाना	12,013
ix)	संस्कृत अध्ययन	14,661
x)	डॉ. बिन्दु अग्रवाल	4,000
xi)	प्रो. ए.एन. भट्ट	4,100
xii)	रमण पोनी स्मारक निधि	8,000
xiii)	डॉ. शीला जुरब्रिग	2,000
xiv)	जय सुरिन्द्र	24,000
xv)	सज्जाद ज़हीर और रजिया ज़हीर	12,000

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)
घ. अन्य निकाय — जारी .....	
6. एस.बी.आई.—शोध व विकास निधि खाता (अनुदान)	1,49,310
7. अनुप्रयुक्त मानव अनुवांशिकी केन्द्र खाता —	
1) अनुदान	1,44,80,000
2) अर्जित ब्याज	2,47,239
8. निवेश भुनाए	20,00,000

कुल योग

27,19,60,150

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

अदायगियाँ	(आँकड़े रूपों में हैं)	
IV निवेश —		
i) प्रो. के.जे. महाले, फ्रें.अ.कें./भा., सा. और सं.अ.सं.	10,000	
ii) आर.बी.आई. चेयर	50,00,000	
iii) नूरुल हसन (शैक्षिक एवं अनुसंधान फाउण्डेशन)	5,00,000	
iv) फोर्ड फाउण्डेशन (सी.एल. एण्ड जी.आर.) — प्रो. कुलदीप माथुर	1,46,73,000	
v) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र, सा.वि.सं.	1,00,000	
vi) जी. पार्थासारथी (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु)	3,00,000	
V. अन्य भुगतान —		
क. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम —		
विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत		
नियुक्त शिक्षकों को वेतन	8,82,399	
ख. यू.जी.सी. शोध विज्ञानी —		
क. वेतन	28,10,114	
ख. अन्य प्रभार	2,11,638	
VI. एक्विजि बैंक पुस्तकालय खाता —		
अनावर्ती (पुस्तकें)	1,29,761	
VII. एस.बी.आई. — शोध एवं विकास निधि खाता —		
क. वेतन	45,500	
ख. अन्य प्रभार	78,930	1,24,430
VIII. अनुपयुक्त मानव अनुवांशिकी केंद्र खाता —		
क. आवर्ती	13,67,996	
ख. अनावर्ती		
i) पुस्तकें	54,602	
ii) उपस्कर	1,11,59,015	
iii) अग्रिम	43,800	1,26,25,413
अंत शेष —		
उद्दिष्ट निधि खाता	11,24,78,278	
जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता —		
बैंक	1,43,074	
एक्विजि बैंक पुस्तकालय खाता —		
बैंक	75,094	
एस.बी.आई. — शोध एवं विकास निधि खाता	31,436	
वेलफेयर स्टेट सिस्टम —		
डिवलपमेंट एंड चैलेंजिज खाता	1,98,372	
अनुपयुक्त मानव अनुवांशिकी केंद्र खाता	21,01,826	11,50,28,080
कुल योग		27,19,60,150

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

प्राप्तियाँ	(ऑकड़े रूपयों में हैं)	
अथ शेष --		
भविष्य निधि खाता	42,16,841	
अन्य जमा	2,42,39,340	
भवन निर्माण निधि	1,48,56,869	4,33,13,050
I. ऋण		
II. जमा --		
भविष्य निधि --		
कर्मचारियों का अभिदान	8,87,29,438	
विश्वविद्यालय का अंशदान	29,53,812	
वर्ष के दौरान अंशदाता के खातों में समायोजित किया गया ब्याज	5,36,32,111	
निवेश भुनाए	11,28,79,713	
निवेश पर अर्जित ब्याज	4,36,18,342	30,18,13,416
III. छात्र-निधि --		
छात्र सहायता-निधि	67,543	
पाठ्येतर कार्य-कलाप के शुल्क	2,30,496	
छात्रों की प्रतिभूति जमा	65,530	
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	9,860	
अन्य जमा (पुस्तकालय जमा, विविध जमा आदि)	6,400	3,79,829
IV. अन्य निधियाँ --		
कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि		1,61,850
V. अन्य जमा --		
बयाना, प्रतिभूति जमा		15,88,915
VI. आरक्षित जमा --		
जमा आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज		39,891
VII. अन्य प्राप्तियाँ --		
गृह-निर्माण अग्रिम निधि की वापसी	66,03,607	
गृह-निर्माण निधि पर अर्जित ब्याज	34,39,374	
वाइन/कंप्यूटर अग्रिम की वापसी	53,97,943	
बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	36,124	
सामूहिक बीमा अभिदान	48,00,332	
एल.आई.सी. सामूहिक बीमा दावे के लिए प्राप्त राशि	36,31,609	
केन्द्रीय यन्त्रीकरण सुविधाएं (सी.आई.एफ.-एस.एल.एस.)	11,000	

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

## अदायगियाँ

(आँकड़े रूपयों में हैं)

## I. ऋण —

## II. जमा —

## भविष्य निधि —

अग्रिम/आहरण/अन्तिम अदायगियाँ	8,43,19,805	
विश्वविद्यालय के अंशदान की अन्तिम अदायगियाँ	31,95,280	
अभिदाताओं के खातों में दिया गया ब्याज निवेश	5,36,32,111	
	16,01,90,127	30,13,37,323

## III. छात्र निधि —

छात्र सहायता निधि	2,01,232	
पाठ्येत्तर कार्यकलाप शुल्क	1,12,805	
छात्रों की प्रतिभूति जमा	40	
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	15,750	
अन्य जमा (पुस्तकालय जमा, विविध जमा आदि)	2,000	3,31,827

## IV. अन्य निधियाँ —

कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	91,590
----------------------------	--------

## V. अन्य जमा —

बयाना/प्रतिभूति जमा	9,96,516
---------------------	----------

## VI. अन्य अदायगियाँ —

भवन निर्माण अग्रिम निधि	1,82,85,219	
वाहन/कंप्यूटर अग्रिम	45,90,405	
स्टाफ सदस्यों के सामूहिक बीमा के लिए एल.आई.सी. को प्रीमियम की अदायगी	47,64,895	
एल.आई.सी. सामूहिक बीमे के दावों की अदायगी	33,24,323	
शोध कार्यकलाप और विशेष व्याख्यान	10,000	
खेल-कूद सुविधाओं पर किराया	12,113	
अलुमिनी एसोसिएशन फंड (ए.एस.सी) —		
क. आवर्ती	5,92,790	
ख. अनावर्ती (उपस्कर)	1,25,000	
डी.एन.ए. सिक्वेसिंग सुविधा (एस.सी.एम.एम.)	2,880	
रोड/पटरी सुधार (एम.टी.एन.एल.)	1,19,325	
अल्पकालीन पाठ्यक्रम (कंप्यूटर केन्द्र)	25,804	3,18,52,754

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

प्राप्तियाँ

(आँकड़े रूपयों में हैं)

## VII. अन्य प्राप्तियाँ - जारी ...

खेल-कूद सुविधाओं का किराया	40,072	
अल्युमिनि एसोसिएशन फण्ड - ए.एस.सी.	3,83,253	
डी.एन.ए. सिक्वेसिंग सुविधा (एस.सी.एम.एम. पर)	26,400	
एम.टी.एन.एल. (रोड सुधार प्रभार खाता पर)	80,925	
अर्जित ब्याज -		
i) निवेश	7,99,685	
ii) बचत बैंक खाता	6,26,982	2,58,77,306

## IX. कार्पस निधि खाता -

मान्यता शुल्क/संबंधन प्रभार		
(मान्यता प्राप्त संस्थान)	31,00,000	
अन्य स्रोत	35,23,541	
निवेश/बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	33,23,236	99,46,777

## X. निवेश भुनाए -

i) जमा खाता	57,14,209	
ii) कार्पस निधि खाता	2,63,00,837	3,20,15,046

कुल योग

41,51,36,080



## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

अदायगियाँ

(आँकड़े रूपयों में हैं)

## VII. भविष्य निधि अंशदान का उपयोग

(विश्वविद्यालय अंश) —

अव्ययित शेष की वापसी

21,92,370

## VIII. कार्पस निधि खाता

क. आवर्ती

5,19,563

ख. अनावर्ती

3,91,452

ग. अनावर्ती (अग्रिम)

46,258

घ. अनुरक्षण खाते में वापसी

58,81,000

68,38,273

## IX. निधियों का निवेश —

i) जमा खाता

59,00,000

ii) कार्पस निधि खाता

3,20,00,000

3,79,00,000

अंतशेष —

बैंक रोकड़

3,35,95,427

कुल योग

41,51,36,080

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-5, अध्येतावृत्ति खाता

प्राप्तियाँ

(औँकड़े रूपयों में हैं)

अथ शेष -

बैंक रोकड़

45,88,799

I. अनुदान -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

i) 'किसी एक समय पर दी गई योजना'

के तहत जे.आर.एफ.

4,00,00,000

II. अर्जित ब्याज -

i) बचत बैंक खाता पर

1,74,230

ii) निवेश

13,92,592

15,66,822

III. निवेश भुनाए

3,03,53,063

कुल योग

7,65,08,684

## 2002-2003 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-5, अध्येतावृत्ति खाता

अदायगियां

(औँकड़े रूपयों में हैं)

## I. 'किसी एक समय पर दी गई योजना' के तहत जे.आर.एफ.

i) अध्येतावृत्ति	2,68,98,079	
ii) आकस्मिक व्यय	13,20,316	
iii) मकान किराया भत्ता	4,39,946	2,86,58,341

## II. निधि का निवेश

3,00,00,000

अंत शेष —

बैंक रोकड़

1,78,50,343

कुल योग

7,65,08,684

## 2002-2003 आय-व्यय लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

लेखा-शीर्ष	व्यय (आँकड़े रूप्यों में हैं)
1. प्रशासन	4,60,40,423
2. सामान्य सेवाएं और सामान्य प्रभार	9,23,37,528
3. शैक्षिक कार्यक्रम	18,35,23,173
4. परीक्षाएं	14,66,064
5. पुस्तकालय	2,09,69,953
6. छात्र सुविधाएं	90,06,974
7. छात्रवृत्तियां	30,31,830
8. छात्रावास	2,27,70,514
9. प्रकाशन	13,90,641
10. अन्य विभाग	6,89,95,995
11. निविध	2,80,26,321
12. भविष्य निधि और पेंशन	7,28,22,564
13. एरियर का भुगतान (पांचवे वेतन आयोग के कारण वेतनमानों में संशोधन)	1,88,61,045
14. परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के विवरण में स्थानांतरित - राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	5,54,61,984
कुल योग	62,47,05,009

## 2002-2003 आय-व्यय लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

लेखा शीर्ष	आय (ऑकड़े रूपयों में हैं)
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (राजस्व खाते पर)	55,89,02,825
2. छात्रों से शुल्क	1,15,37,413
3. छात्रावास	6,89,485
4. भूमि और भवनों से आय	1,02,11,956
5. प्रकाशन (रायल्टी)	1,68,231
6. प्रवेश फार्मों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क	1,98,63,341
7. अर्जित ब्याज	25,22,568
8. विविध प्राप्तियां/राजस्व	2,08,09,190

कुल योग

62,47,05,009

## 2002—2003 आय—व्यय लेखा

## भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

लेखा शीर्ष	व्यय (आँकड़े रूपों में हैं)
1. शैक्षणिक कार्यक्रम—	
क. संस्थान	21,60,560
ख. अन्य विविध शैक्षणिक गतिविधियां	97,28,692
ग. अन्य एकल योजनाएं	66,04,561
2. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा	19,18,581
कुल योग	2,04,12,394

## 2002—2003 आय—व्यय लेखा

## भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

लेखा शीर्ष	आय (आँकड़े रूपों में हैं)
1. अनुदान—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग —	
(राजस्व खाते पर)	38,50,807
2. अन्य संगठन —	
(राजस्व खाते पर)	42,68,111
3. जैव—प्रौद्योगिकी/जैव—सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश फार्मों की बिक्री/प्रवेश परीक्षा शुल्क	84,69,555
4. अर्जित ब्याज —	
(बचत बैंक खाता)	10,04,847
5. विविध प्राप्तियाँ	3,20,500
6. परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण में स्थानांतरण —	
राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	24,98,574

कुल योग

2,04,12,394

### 31.3.2003 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

31.3.2002 की स्थिति	देयताएं	31.3.2003 की स्थिति
1,16,34,11,259*	अनुदानों का पूंजीकृत मूल्य	1,31,69,39,935*
6,22,70,860	अग्रिमों के भुगतान हेतु उपयोग किए गए अनुदान	4,15,61,586
	उपयोगाधीन अनुदान —	
11,03,09,004	i) राजस्व खाता पर	16,91,53,414
15,25,57,226	ii) पूंजीगत खाता पर	16,70,91,311
	उपहार और दान —	
24,91,377	i) उपहार और दान	24,86,377
1,19,49,316	ii) विश्वविद्यालय को दान में प्राप्त पुस्तकों का मूल्य	1,22,38,162
5,48,61,217	वृत्तिदान और पुरस्कार (कार्पस)	5,78,53,037
10,53,97,461	उद्दिष्ट (विशेष) निधि—खाते के शेष	14,58,42,662
2,99,41,862	अध्येतावृत्ति खाते के शेष	4,28,50,343
2,75,11,593	जमा खाते के शेष (भविष्य निधि—खाते एवं मूल्यहास निधि खाते के अलावा)	2,74,53,012
11,05,208	जमा आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज	11,45,099
7,72,86,805 **	गृह निर्माण निधि	8,07,26,179 @
1,54,72,973	वाहन अग्रिम निधि	1,55,09,097
8,45,05,245	कार्पस निधि	3,76,13,749
	भविष्य निधि खाता —	
35,51,05,341	i) सामान्य भविष्य निधि	40,70,85,918
8,51,40,213	ii) अंशदायी भविष्य निधि	9,09,59,912
3,25,60,337	iii) ब्याज	2,25,46,568
32,079	प्रतीक्षित प्राप्तियों/वसूलियों का समायोजन	21,003

\* इसमें केन्द्रीय विद्यालय भवन बनाने के लिए आईआईटी से 33.33 लाख रुपये एन.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त 28.33 लाख रुपये तथा के.वि.सं. के लिए दो क्वाटरों के निर्माण हेतु तथा फर्नीचर आदि के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त 9.66 लाख रुपये की राशि शामिल है।

\*\* गृह-निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु. 3,83,33,805/- इसमें शामिल है।

@ गृह-निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु. 4,17,73,179/- इसमें शामिल है।



## 31.3.2003 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

31.3.2002 की स्थिति	परिसंपत्तियां	31.3.2003 की स्थिति
	विश्वविद्यालय परिसर का विकास	
	भूमि —	
2,44,26,996	i) नये परिसर पर	2,44,26,996
26,676	ii) फीरोजशाह रोड़ पर	26,676
	भवन —	
	i) नये परिसर पर	
28,88,69,592	क. पूरा हो चुका कार्य	28,88,83,465
17,04,73,216	ख. चल रहा कार्य	21,03,53,789
21,07,201	ii) फीरोजशाह रोड़ पर	21,07,201
7,99,71,944	बाह्य सेवाएं	8,42,28,846
1,04,351	उपस्कर एवं संयंत्र	1,04,351
2,67,61,977	फर्नीचर और साज-सज्जा (पुस्तकालय के अतिरिक्त)	3,07,71,086
33,50,44,343	उपस्कर	41,44,40,858
10,50,980	भाषा प्रयोगशाला की साज-सज्जा (सी.आर.एस./जापानी प्रयोगशाला की स्थापना)	10,50,980
	पुस्तकालय —	
22,73,48,629	i) पुस्तकें और पत्रिकाएं	25,32,48,273
84,10,734	ii) फर्नीचर	87,73,414
4,37,667	iii) माइक्रोफिल्म एवं रिप्रोग्राफी उपकरण	4,37,667
81,76,587	टेलीफोन	81,76,587
46,41,061	विश्वविद्यालय के वाहन	46,34,287
	निम्नलिखित खातों में से पूंजी के रूप में दिए गए अग्रिम —	
66,25,349	i) अनुरक्षण (योजनेतर) खाता	93,40,835
5,39,79,739	ii) विकास (योजनागत) खाता	2,43,22,757
16,65,772	iii) उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	78,51,736
—	iv) जमा खाता	46,258
7,00,81,331	वृत्तिदान का निवेश/ई.एम.एफ. खाता शेष	8,86,64,331
46,85,89,050	भविष्य निधि निवेश	51,58,99,464
12,13,96,100	योजनागत खाता में से निवेश	9,25,00,000
4,91,271	त्योहार अग्रिम	4,64,921

31.3.2003 को परिसंपत्ति और दायित्व की स्थिति का विवरण31.3.2002 की स्थिति      देयताएं31.3.2003 की स्थितियां


2,32,19,09,376

योग

2,63,90,77,364

31.3.2002 को परिसंपत्ति और दायित्व की स्थिति का विवरण


<u>31.3.2002 की स्थिति</u>	<u>परिसंपत्तियां</u>	<u>31.3.2003 की स्थिति</u>
1,32,45,569	जमा में से निवेश .	1,34,31,360
1,85,00,000	गृह निर्माण निधि खाते में से निवेश	1,85,00,000
2,53,53,063	अध्येतावृत्ति खाता में से निवेश .	2,50,00,000
2,64,75,837	कार्पस निधि	3,21,75,000
	अग्रिम —	
4,39,29,835	i) गृह—निर्माण अग्रिम	5,56,11,547
1,46,31,117	ii) वाहन अग्रिम	1,38,23,579
	अंत शेष —	
98,175	अग्रदाय	1,05,800
	हाथ रोकड़/बैंक में —	
	अनुरक्षण (योजनेतर) खाता —	
98,37,665	i) विश्वविद्यालय प्राप्तियां	2,63,25,130
10,37,68,412	ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	14,86,27,580
2,73,13,129	विकास (योजनागत) खाता	6,82,48,740
9,01,74,059	उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	11,50,28,080
4,33,13,050	जमा खाता (भविष्य निधि खाता, छात्र खाता, गृह निर्माण अग्रिम खाता वाहन अग्रिम निधि खाता तथा कार्पस निधि खाता सहित)	3,35,95,427
45,88,799	अध्येतावृत्ति खाता	1,78,50,343
2,32,19,09,376	योग	2,63,90,77,364



जी.सी. ढोंडियाल  
सहायक वित्त अधिकारी (डी)  
जवाहरलाल नेहरू  
विश्वविद्यालय



ए.के. मलिक  
उप वित्त अधिकारी  
जवाहरलाल नेहरू  
विश्वविद्यालय




एस. नंदक्योलयार  
वित्त अधिकारी  
जवाहरलाल नेहरू  
विश्वविद्यालय

### लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे और 31 मार्च 2003 के परिसम्पत्ति और देयताओं के विवरण की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा विश्वविद्यालय की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के कार्यकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं तथा संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जिसमें से अधिकांशतः कई वर्षों से निरन्तर बनी हुई है निहित है :-

1. वि.अ.आ. द्वारा ऐसी निधि के सृजन हेतु जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुरक्षण अनुदान के अंतर्गत प्राप्तियों को कॉरपस निधि में विपथित किया गया था। (पैरा 2.2)
2. तैयार किए गए प्रायोजित एजेंसी वार परियोजना लेखाओं में प्रत्येक परियोजना का उपशीर्ष वार व्यय के ब्यौरे नहीं दर्शाए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परियोजना का कोई समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार करके वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न नहीं किया गया था। (पैरा 2.8)
3. बन्द की गई परियोजना के अंतर्गत कुल 31.49 लाख रु. के अनुदान 4 वर्ष से 12 वर्षों से अधिक समय के लिए अग्रयुक्त/अव्ययित पड़े थे जिन्हें संस्थानों को अनुदान देते समय वापस नहीं किया गया है। (पैरा 2.7)
4. मूल अभिलेख जैसे भूमि तथा भवन रजिस्टर तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर का उचित ढंग से अनुरक्षण नहीं किया गया था। (पैरा 2.4)
5. बैंक समाधान विवरण में भिन्न मदे जिनके नाम अधिक डेबिट, अधिक क्रेडिट है शामिल है जो बहुत पहले 1980-81 की अवधि से संबंधित है जिसके लिए उचित अनुवर्ती कार्यवाही तथा मदों का निपटान किए जाने की आवश्यकता है। (पैरा 2.10)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 8-6-2004

  
(डा.अं.कु.बनर्जी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

तारीख 1 जून, 2005

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

रा.1 सीए (7)/84/2005 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् बनाने के लिए प्रस्तावित करती है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिससे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, पैंतालीस दिनों की कालावधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उसे परिषद् के विचारार्थ इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर सचिव, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को भेज सकेगा।

उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार उल्लिखित कालावधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप विनियम**

- इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 48 में, उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1)(क) प्रत्येक नियोक्ता, जो ऐसे किसी आर्टिकल्ड क्लर्क को नियोजित करता है, जिसने वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण की है और विनियम 45(ख)(ii) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ऐसे क्लर्क को, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आर्टिकल्ड क्लर्क का सामान्य कार्य-स्थान कहाँ स्थित है, प्रत्येक मास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मासिक वृत्तिका का संदाय करेगा:-

**सारणी**

आर्टिकल्ड क्लर्क के सामान्य कार्य-स्थान का वर्गीकरण	प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) बीस लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	1000/- रु.	1250/- रु.	1500/- रु.
(ख) चार लाख और इससे अधिक किन्तु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	750/- रु.	1000/- रु.	1250/- रु.
(ग) चार लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	500/- रु.	750/- रु.	1000/- रु.

(ख) प्रत्येक नियोक्ता, जो ऐसे किसी आर्टिकलड क्लर्क को नियोजित करता है, जिसने, यथास्थिति, फाउंडेशन परीक्षा या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसे क्रमशः 30 जून, 2004 या 30 सितंबर, 2001 तक आर्टिकलड क्लर्क के रूप में रजिस्ट्रीकृत भी किया गया है, ऐसे क्लर्क को, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आर्टिकलड क्लर्क का सामान्य कार्य-स्थान कहां स्थित है, प्रत्येक मास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मासिक वृत्तिका का संदाय करेगा :-

## सारणी

आर्टिकलड क्लर्क के सामान्य कार्य-स्थान का वर्गीकरण	प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) बीस लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	450/- रु.	600/- रु.	800/- रु.
(ख) तीन लाख और इससे अधिक किन्तु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	300/- रु.	450/- रु.	600/- रु.
(ग) तीन लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	200/- रु.	300/- रु.	450/- रु.

परन्तु आर्टिकलड क्लर्क को इन विनियमों के अधीन आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, शहरो/कस्बों के संबंध में दरों के उपरोक्त वर्गीकरण को विचार में लाए बिना, उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तारीख से अगले मास के पहले दिन से प्रति मास 300/- रु. की अतिरिक्त वृत्तिका का संदाय किया जाएगा ।

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (ख) के अधीन आने वाला आर्टिकलड क्लर्क, इन नियमों के अधीन वृत्तिका शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण करने पर इस बात पर, निर्भर करते हुए कि आर्टिकलड क्लर्क का सामान्य कार्य-स्थान कहां स्थित है, उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तारीख से अगले मास के पहले दिन से, खंड (क) के नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मासिक वृत्तिका का पात्र होगा ।

**स्पष्टीकरण 1** – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ली गई किसी अतिरिक्त छुट्टी के लिए, कोई वृत्तिका संदेय नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण 2** – उन दरों का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, जिन पर इस विनियम के अधीन वृत्तिका संदेय है, विद्यार्थी द्वारा किसी पूर्व नियोक्ता या नियोक्ताओं के अधीन ली गई आर्टिकलड प्रशिक्षण की अवधि (ऐसी कोई अवधि 1 जुलाई, 1973 से पूर्व की न हो) को हिसाब में लिया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 3** – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े पिछली प्रकाशित भारत की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लिए जाएंगे ।”

डा. अशोक हल्दिया  
सचिव

**STATE BANK OF INDIA  
(ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP)**

Mumbai, the 27th May 2005

SBD. No. 2/2005.—In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri S. K. Bhattacharya as Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of two years with effect from the date he assumes charge.

A. K. PURWAR  
Chairman

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

New Delhi, the 26th May 2005

No. N-15/13/11/2/93-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:—

"Areas comprising the Revenue Village of Bardwal Had Bast No. 92 in District of Sangrur."

S. THOMAS  
Director (P&D)

No. N-15/13/11/3/2003-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil and District
1.	Uchi Mangali	235	Ludhiana
2.	Ramgarh	236	Ludhiana
3.	Jandiali	225	Ludhiana
4.	Budhewal	187	Ludhiana
5.	Kohara	224	Ludhiana
6.	Maangarh	223	Ludhiana
7.	Hiran	217	Ludhiana
8.	Lalkalan	337/338	Ludhiana
9.	Bhairon Munna	222	Ludhiana
10.	Hadia	206	Ludhiana

S. THOMAS  
Director (P&D)



No. N-15/13/11/4/2003-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

"Areas comprising the Revenue Village of Alamgir Had Bast No. 273 in Tehsil and District of Ludhiana "

S. THOMAS  
Director (P&D)

No. N-15/13/11/5/2003-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil and District
1.	Gahor	143	Ludhiana
2.	Baddowal	294	Ludhiana
3.	Barewal	157	Ludhiana
4.	Eyali Khurd	153	Ludhiana
5.	Eyali Kalan	155	Ludhiana

S. THOMAS  
Director (P&D)

### JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

The Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University for the year 2002-2003 and the Certificate thereon are hereby published as required under sub-section (2) of the Section 29 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966 (53 of 1966).

S. J. JECOLYAN  
Finance Officer

### ANNUAL ACCOUNTS

2002-2003

(1)  
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY  
STATEMENT SHOWING THE GRANT RECEIVED AND EXPENDITURE INCURRED DURING 2002-2003  
( PART-WISE )

PART-I Maintenance (Non-Plan) Account		PART-II Development (Plan) Account		PART-III Earmarked (Special) Fund A/c		PART-IV Debt., Deposit etc. Account		PART-V Fellowship Account		Total
Grants from UGC	University Receipts									
Opening Balance as on 1.4.2002	10,38,57,587	98,37,665	2,73,22,129	9,01,74,059	4,33,13,050	45,88,799	27,90,93,289			
Receipts/ Recoveries/ Refunds etc. during 2002- 2003	58,77,67,000	7,23,89,034	16,88,96,065	18,17,86,091	37,18,23,030	7,19,19,885	1,45,45,81,105			
TOTAL	69,16,24,587	8,22,26,699	19,62,18,194	27,19,60,150	41,51,36,080	7,65,08,684	1,73,36,74,394			
Payments/ Remittances etc. during 2002-2003	54,28,96,207	5,59,01,569	12,79,64,454	15,69,32,070	38,15,40,653	5,86,58,341	1,32,38,93,294			
Closing Balance as on 31.3.2003	14,87,28,380	2,63,25,130	6,82,53,740	11,50,28,080	3,35,95,427	1,78,50,343	40,97,81,100			

**EXPLANATORY NOTES**

The Receipts and Payments Account (Page 1 to 44) is divided in five parts I to V. They cover the following transactions:-

- I. Maintenance (Non-Plan) Account : Dealing with the Receipts and Payments expenditure connected with the non-plan account of the University and connected Receipts.
- II. Development (Plan) Account : Dealing with the expenditure on development of University out of the 10th Five Year Plan Provision and the connected receipt.
- III. Earmarked (Special) Fund Accounts: Dealing with grants for specific purposes from Govt. of India, University Grants Commission, State Governments, Chairs, Endowments, Trust Funds etc. and the expenditure met therefrom.
- IV. Debt., Deposit etc. Account : Dealing with the receipts and Payments outgoings under Debt., Deposits etc. Accounts heads.
- V. Fellowship Account : Dealing with the receipts and Payments in connection with Research Fellowships under 'At any one given time basis'.

..-.-.-.-.-.

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	(Figures in rupees)	
REVENUE ACCOUNT		
Opening Balance -		
Imprest	89,175	
Cash in Hand	11,076	
Cash in Bank -		
i) Grants from UGC	10,37,57,336	
ii) University Receipts	98,37,665	11,36,95,252
I. GRANTS -		
University Grants Commission		
i) Maintenance (Block) Grant	57,77,67,000	
ii) Special Repair of Buildings	1,00,00,000	58,77,67,000
II. FEES FROM STUDENTS -		
i) Academic	1,14,01,332	
ii) Examinations	69,370	
iii) Others	66,711	1,15,37,413
III. HOSTEL FEES		6,89,485
IV. INCOME FROM LAND, BUILDINGS AND OTHER PROPERTY -		
i) Rent from Staff Quarters	24,30,956	
ii) Rent from Guest Houses	25,30,630	
iii) Rent from Shops	32,25,900	
iv) Rent from accommodation leased to State Bank of India, ICHR and Post Office etc.	6,63,497	
v) Gonti Guest House	13,60,973	1,02,11,956
V. PUBLICATIONS (Royalties)		1,68,231
VI. MISCELLANEOUS -		
i) Sale of tender forms and Newspapers etc.	1,06,288	
ii) CGHS Recoveries	12,37,515	
iii) Other Receipts	1,94,65,387	2,08,09,190
VII. SALE OF ADMISSION FORMS AND ENTRANCE EXAMINATION FEES		1,98,63,341

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
<b>1.ADMINISTRATION -</b>		
i)Vice-Chancellor's Office	20,69,221	
ii)Rector's Office	20,12,085	
iii)Registrar's Office	2,32,80,736	
iv)Finance & Accounts Deptt. (Including Internal Audit)	1,54,60,991	
v)Deans' Administration	32,17,390	4,60,40,423
<b>2.COMMON SERVICES AND GENERAL CHARGES -</b>		
<b>1.Travelling Allowance -</b>		
i)Members of EC/AC/FC/Court	1,46,464	
ii)Members of Selection Committee/ Board of Studies etc.	3,03,164	
iii)Members of University Staff	5,48,632	
iv)Travel grant paid on first appointment and candidates called for interview.	2,26,859	
	<u>12,25,119</u>	
2.Postage and Telegrams	21,44,387	
3.Purchase of Stationery	14,27,055	
4.Telephones	43,26,945	
5.(a)Repairing,Oiling,Cleaning of typewriters,duplicators and Xerox machine etc.	2,27,086	
(b)Repair of Room/Water Cooler/ Heaters/Fans/ACs.	3,36,414	
6.Repair/Polishing of furniture	5,55,210	
7.Electricity charges	6,45,58,450	
8.Water Charges	72,79,589	
9.Maintenance of Staff Car	10,17,281	
10.Liveries and Uniforms	17,99,755	
11.Printing of forms and registers	9,99,044	
12.Entertainment	2,09,386	
13.Advertisement	3,68,182	
14.Rent of NAA Campus	11,00,664	
15.Legal Expenses	3,91,156	
16.Rates and Taxes	740	
17.Maintenance of Admn. Computer	81,919	
18.Conservancy charges	12,00,966	

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT****RECEIPTS****(Figures in rupees)**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**2.COMMON SERVICES AND GENERAL CHARGES - contd.**

19.Other contingencies	26,88,390	
Non-recurring	37,464	
20.Purchase of Cleaning material	3,99,790	9,23,74,992

**3.ACADEMIC PROGRAMMES -****A.SCHOOLS -****I.School of Social Sciences -**

1)Salaries	4,21,04,121
1i)Other charges	11,58,728
1ii)Non-recurring	3,750
iv)Non-recurring(Books)	23,514
v)Non-recurring(Advance)	3,38,786

**II.School of International Studies -**

1)Salaries	2,62,82,355
1i)Other charges	9,13,279
1ii)Non-recurring	1,23,906
iv)Non-recurring(Advance)	1,74,000

**III.School of Languages,****Literature & Culture Studies -**

1)Salaries	4,09,24,962
1i)Other charges	5,33,919
1ii)Non-recurring	69,618
iv)Non-recurring(Advance)	79,660

**IV.School of Life Sciences -**

1)Salaries	1,25,59,701
1i)Other charges	27,64,739
1ii)Non-recurring	6,92,394
iv)Non-recurring(Advance)	7,600

**V.School of Environmental Sciences -**

1)Salaries	1,04,34,731
1i)Other charges	7,20,151
1ii)Non-recurring	2,44,912
iv)Non-recurring(Advance)	3,66,918

**VI.School of Computer and Systems Sciences -**

1)Salaries	70,10,764
1i)Other charges	2,25,086
1ii)Non-recurring	1,96,813
iv)Non-recurring(Advance)	2,35,420

**VII.School of Physical Sciences -**

1)Salaries	60,79,456
1i)Other charges	4,58,325
1ii)Non-recurring	1,93,810
iv)Non-recurring(Advance)	41,844

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**3.ACADEMIC PROGRAMMES - contd.****VIII.School of Arts & Aesthetics -**

1)Salaries	15,85,559
ii)Other charges	1,04,239
iii)Non-recurring	1,94,250

**IX.Computer Centre -**

1)Other charges	3,450
-----------------	-------

**X.Centre for the Study of  
Law and Governance -**

1)Salaries	10,63,695
ii)Other charges	38,946
iii)Non-recurring	5,44,156
iv)Non-recurring (Advance)	1,74,000

**XI.Special Centre for Molecular  
Medicines -**

1)Salaries	10,71,629
ii)Other charges	11,96,179
iii)Non-recurring	14,198
iv)Non-recurring (Advance)	1,74,000

**XII.School of Information & Technology -**

1)Salaries	1,15,017
ii)Other charges	6,55,011
iii)Non-recurring	3,19,070

**XIII.Centre for Sanskrit Studies -**

1)Salaries	10,36,920
ii)Other charges	81,887
iii)Non-recurring	1,71,171
iv)Non-recurring (Advance)	2,35,769

---

16,37,52,302

---

**B.CENTRALISED FACILITIES -****I.Setting up of University  
Services & Instrumentation  
Centre (USIC) -**

1)Salaries	23,13,384
ii)Other charges	51,863
iii)Non-recurring (Advance)	10,000

**II.Animal House -**

1)Salaries	10,44,542
ii)Other charges	3,96,036

**III.Botanical Garden -**

1)Salaries	4,57,494
ii)Other charges	36,580

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT****RECEIPTS**

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**3.ACADEMIC PROGRAMMES - contd.**  
**B.CENTRALISED FACILITIES - concld.**

**IV. Communication & Information  
 Centre -**

1) Salaries	16,32,747
ii) Other charges	25,579

**V. Maintenance of Central  
 Facilities - Equipment**

--

---

 59,68,225
 

---

**C. OTHER INDIVIDUAL SCHEME -**

**I. Development of Multi-  
 disciplinary Teaching and  
 Training in Bio-technology -**

1) Salaries	39,13,565
ii) Other charges	3,37,049
iii) Non-recurring	1,33,683
iv) Non-recurring (Advance)	92,232

**II. BIC - Bio-informatics  
 (Salaries)**

10,13,547

**III. Adult Continuing Education  
 and Extension Unit -  
 (Salaries)**

15,86,305

**IV. Special Assistant Programme -**

**(a) School of Social Sciences -**

**i) Centre for the study  
 of Social Systems -**

1) Salaries	7,27,879
-------------	----------

**ii) Centre for the Study  
 of Regional Development**

1) Salaries	11,43,478
-------------	-----------

**iii) Zakir Hussain Centre  
 for Educational Studies**

1) Salaries	3,43,177
-------------	----------

**iv) Centre for Historical  
 Studies**

1) Salaries	2,32,396
-------------	----------

**(b) School of Life Sciences -**

1) Salaries	2,35,205
-------------	----------

---

 97,58,516
 

---

**D. MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC  
 ACTIVITIES**

**Non-recurring**
 88,99,604  
 24,700

18,84,03,347

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

**PAYMENTS****(Figures in rupees)**

<b>4.EXAMINATIONS</b>		<b>14,66,064</b>
<b>5.LIBRARY -</b>		
i)Salaries	2,04,93,188	
ii)Books and Journals	1,44,22,360	
iii)Periodicals & Newspapers	1,48,135	
iv)Other charges	3,28,630	
v)Non-recurring	3,62,680	3,57,54,993
<b>6.STUDENTS' FACILITIES -</b>		
<b>I.Dean of Students -</b>		
a.Salaries	17,81,947	
b.Other charges	46,569	
<b>II.Physical Training,Sports Activities and Games -</b>		
a.Salaries	11,59,932	
b.Other charges	4,85,770	
c.Non-recurring(Advance)	47,810	
<b>III.Students' Health Centre -</b>		
a.Salaries	34,50,195	
b.Other charges	12,38,209	
<b>IV.Other Facilities -</b>		
Students' Buses		
a.Salaries	95,753	
b.Other charges	1,48,599	
c.Non-recurring	25,840	90,80,624
<b>7.SCHOLARSHIPS</b>		<b>30 31,830</b>
<b>8.STUDENTS' HOSTELS -</b>		
a.Salaries	2,13,28,110	
b.Other charges	14,42,404	
c.Non-recurring	69,664	
d.Non-recurring(Advance)	2,80,896	2,31,21,074
<b>9.PUBLICATIONS -</b>		
a.Salaries	5,71,008	
b.Other charges	8,19,633	13,90,641
<b>10.OTHER DEPARTMENTS -</b>		
<b>A. ENGINEERING DEPARTMENT -</b>		
i)Salaries	2,23,09,813	
ii)Estate Maintenance	1,12,78,974	
Non-recurring(Advance)	11,62,288	
iii)Minor Works	1,92,788	
iv)Maintenance and Running of Water Pump	12,500	
v)Maintenance of vehicles	1,12,857	
vi)Other charges	1,36,178	
	<hr/>	
	3,52,35,398	
	<hr/>	

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

<b>10. OTHER DEPARTMENTS - contd.</b>		
B. Sanitation Staff (Salaries)	1,70,82,416	
C. Security Staff (Salaries)	1,09,06,716	
D. Estate Office (Salaries)	55,34,396	
E. Gomti Guest House -		
a. Salaries	3,94,710	
b. Other charges	1,82,638	
c. Non-recurring	27,150	
F. Aravali/International Guest House and Faculty Club -		
a. Recurring	8,22,009	
b. Non-recurring	2,99,816	7,04,85,249
<b>11. MISCELLANEOUS -</b>		
A. Membership and contribution paid to various Educational Bodies/Institutions	1,60,696	
B. Insurance Premia Laboratories	758	
C. Furniture for Administrative Offices and Faculties Advance	37,90,977	
	5,84,100	
D. Furniture for Laboratories	-	
E. Equipment for Administrative Offices and Faculties Advance	15,74,520	
	1,74,000	
F. Desert/Water Coolers and Air-conditioners Advance	2,08,364	
	9,16,072	
G. Other Items -		
i) Leave Travel Concession	1,72,559	
ii) Medical attendance to staff (CGHS Contributions)	87,39,319	
iii) Over time Allowance	19,99,536	
iv) Re-imbursement of tuition fees/Grants for Children Education Allowance	63,955	
v) Convocation Expenses and Academic Robes	--	
vi) VC's Discretionary Fund	1,00,000	
vii) Festival Advance	6,79,500	

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**11. MISCELLANEOUS - contd.****G. Other Items - conold.**

viii) Dailywages Workers' Salaries	41,40,419	
ix) Honorarium paid to staff	3,83,689	
x) Special Lectures and training to staff	13,981	
xi) Bonus	28,42,358	
xii) Grants to Faculty Club	10,000	
xiii) Maintenance of Horticulture	5,27,143	
xiv) Gender Sensitization Committee against Sexual Harassment (GSCASH)	21,374	
xv) Private Security	88,50,534	3,59,53,854

**12. PROVIDENT FUND AND PENSION -**

i) Provident Fund Contribution	26,93,547	
ii) Deposit Linked Insurance	--	
iii) Pension	3,19,63,249	
iv) Gratuity	1,50,67,083	
v) Commuted value of Pension	1,39,78,329	
vi) Leave Encashment	91,20,356	7,28,22,564

**13. Payment of arrears (Revision of pay on account of fifth Pay Commission)**

1,88,61,045.

**TOTAL**

59,87,86,700

**14. REMITTANCES -**

Remittances of recoveries/  
 receipts of previous year -

Undisbursed amount paid

11,000

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT****RECEIPTS**

(Figures in rupees)

**VIII. INTEREST EARNED ON -**

1) Investment	8,16,806	
11) Saving Bank Account	17,05,762	25,22,568

**IX. RECOVERIES/RECEIPTS/REFUNDS -**

Festival Advance		7,05,850
Corpus Fund Account		58,81,000

**GRAND TOTAL****77,38,51,286**

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

---

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**CLOSING BALANCE -**

Imprest	1,00,800	
Cash in Hand -	--	
Cash in Bank -		
a. Grants from UGC	14,86,27,580	
b. University Receipts	2,63,25,130	17,50,53,510

**GRAND TOTAL****77,38,51,286**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

Opening Balance -		
Imprest	9,000	
Cash in Hand	--	
Cash in Bank	2,73,13,129	2,73,22,129
<b>I. GRANTS -</b>		
<b>A. University Grants Commission -</b>		
i) Recurring Grant	38,50,807	
ii) Non-recurring grant for -		
a. Development of University Campus	6,93,00,000	
b. Other Capital Grant	14,37,521	7,45,88,328
<b>B. Interest earned on investment of grants</b>		78,28,382
<b>C. Other Organisations -</b>		
i) Ministry of Science and Technology (Department of Bio-technology) -		
a. Recurring	41,32,000	
b. Non-recurring	7,46,000	48,78,000
ii) Delhi State Aids Control Society (Govt. of NCT Delhi) - Recurring		1,36,111
<b>II. MISCELLANEOUS RECEIPTS/RECOVERIES/REFUNDS/ADJUSTMENTS RELATING TO -</b>		
Non-recurring -		
i) Equipment	2,42,585	
ii) Const. of Bio-containment Facility	31,657	2,74,242
<b>III. INTEREST EARNED ON -</b>		
(Saving Bank Account)		10,04,847

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**RECURRING****1.ACADEMIC PROGRAMMES -****A.SCHOOLS****I.School of International Studies -****a.Gulf Studies -**

i)Other charges 60,822

ii)Scholarships/Fellowships 1,10,335

**b.Soviet Studies -**i)Salaries  
(Research Associates) 3,59,041**ii)Other charges -**

i.Recurring 87,252

ii)Non-recurring 34,575

iii)Scholarship/Fellowship 1,39,995

**II.Centre for the Study of Law and Governance -**Teaching Staff  
Salaries 3,14,482**III.Centre for Womens' Studies -**

Other charges 2,60,728

**IV.Centre for Sanskrit Studies -**

Salaries 5,09,066

**V.School of Social Sciences -**Teaching Staff  
Salaries 3,18,839

21,95,135

**B.MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC ACTIVITIES -****I.Academic Staff College**

i)Salaries 18,19,269

ii)Other charges 59,00,342

iii)Non-recurring 29,490

iv)Non-recurring(Furniture) 1,76,941 79,26,042

**II.Department of Special Assistance Programme (DSA), SSS -****a.Centre for Study of Social Systems -**

Other charges 2,48,835

**b.Centre for Historical Studies -**

Other charges 2,49,232

**c.Zakir Hussain Centre for Educational Studies -**

i)Salaries 1,73,729

ii)Other charges 3,69,320

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN)ACCOUNT**

**PAYMENTS -**

(Figures in rupees)

<b>II. Department of Special Assistance Programme-DSA/SSS - contd.</b>		
d. Centre for Economic Studies and Planning -		
Other charges	2,100	
e. Centre for the Study of Regional Development -		
Other charges	1,99,691	
f. School of Life Sciences		
Other charges	3,00,245	15,43,152
<b>III. UGC Assistance at the level of DRs under SAP -</b>		
a. School of Physical Sciences -		
i) Other charges	1,66,656	
ii) Upgradation/Augmentation and Renovation of laser Lab. -		
Recurring	48,056	
Non-recurring	2,36,034	
Non-recurring(Advance)	31,845	
b. School of Environmental Sciences -		
i) Salaries	1,01,685	
ii) Other charges	1,49,532	7,33,808
<b>C. OTHER INDIVIDUAL SCHEME -</b>		
I. Development of Multi-disciplinary Teaching and Training in Bio-technology -		
a. Salaries	2,21,040	
b. Other charges	4,52,071	
c. Non-recurring	2,83,474	
d. Non-recurring(Advance)	1,43,500	
e. Students/Research Associateship	2,31,490	13,31,575
<b>II. BIC - BIO-INFORMATICS -</b>		
a. Other charges	7,08,933	
b. Non-recurring	4,55,516	
<b>National facilities on Interactive Computer Graphic System for Molecular Modelling -</b>		
a. Salaries	1,18,486	
b. Other charges(Non-recurring)	6,81,946	
<b>Mirror Site - BIC - IV</b>		
Other charges	54,992	

---

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT

---

RECEIPTS

(Figures in rupees)



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS		(Figures in rupees)	
C.OTHER INDIVIDUAL SCHEME - contd.			
II.BIC BIO-INFORMATICS - concl'd.			
One year advance Diploma Course in Bio-informatics -			
Other charges	3,23,829		
Non-recurring	2,71,122	26,14,824	
III.COSIST PROGRAMME -			
a.School of Physical Sciences			
i)Other charges	9,670		
ii)Non-recurring	8,10,917		
b.School of Environmental Sciences -			
i)Other charges	1,68,910		
ii)Non-recurring	22,27,055	32,16,552	
IV.INFLIBNET PROGRAMME(Library) -			
i)Salaries	4,000		
ii)Other charges	3,983	7,983	
V.Counselling Centre for HIV/AIDS (Health Centre) -			
Other charges		1,32,174	
VI.Establishment of Yoga Centre -			
i)Salaries	1,80,000		
ii)Other charges	3,967	1,83,967	
VII.UGC Assistance to JNU under the Scheme of TEPSE/HEPSN -			
i)Other charges	26,631		
ii)Non-recurring	26,000	52,631	
VIII.Remedial Coaching Courses for SC/STs -			
i)Other charges	12,762		
ii)Non-recurring	2,52,010	2,64,772	
IX.Extension of SC/ST Cell -			
Other charges		54,670	
X.Potencial for Excellance(UGC)			
		38,96,953	
3.Combine Entrance Exams for Bio-technology courses -			
Other charges		19,18,581	
TOTAL-A-REVENUE ACCOUNT		2,60,72,819	

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN)ACCOUNT**

... 12'

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**B.CAPITAL ACCOUNT -****A.CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS -****I.SCHOOL BUILDINGS -**

1)Centre for Historical Studies (DSA Programme)	32,475	
ii)School of Physical Sciences Building (DRs/SAP)	2,377	
iii)COSIST - School of Physical Sciences	29,665	
iv)Construction of Science Centre	5,00,000	
v)Centre for the Study of Law and Governance	31,00,000	
vi)Academic Staff College	35,00,000	71,64,517

**II.RESIDENTIAL BUILDING -**

1)Construction of Hostel for North Eastern Region Students Advance	30,00,000	
ii)Construction of Boys Hostel for STs	70,00,000	
iii)Construction of Girls Hostel for STs	4,97,170	
iv)Construction of Post Doctoral Research Scholar Hostel(Phase-II)	15,21,632	1,20,18,802

**III.MISCELLANEOUS BUILDINGS -**

1)Sports Complex	21,680	
ii)Extension of Health Centre Building	2,49,694	
iii)Construction of Bio-containment facility (for keeping Experi- mental infected Animals)	13,488	2,84,862

**IV.EXTERNAL SERVICES -**

1)Providing Access to persons with disability (under UGC Scheme of HEPSN)	88,757	
ii)Providing Aluminium Partition and RCC Platform with tiles in CIF rooms (SES-Cosist)	84,920	1,73,677

**TOTAL-A-CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS - 1,96,41,858**

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS		(Figures in rupees)	
E.OTHER CAPITAL EXPENDITURE -			
I.EQUIPMENT -			
A.SCHOOLS -			
1)Centre for Sanskrit Studies	29,675		
ii)School of Languages,Literature and Cultural Studies(Language Lab. Complex)	5,66,191		
iii)School of Life Sciences	2,676		
iv)Special Centre for Molecular Medicine	1,596		
v)Soviet Studies	32,230		
vi)Womens' Studies Scheme	9,348	6,41,716	
B.Administration		49,807	
C.Health Centre		4,533	
D.Potential for Excellance		2,22,06,379	
E.Cosist Programme -			
School of Environmental Sciences		29,99,169	
F.Department of Special Assistance Programme(DSA) -			
1)Zakir Hussain Centre for Educational Studies	32,870		
ii)Centre for Study of Social Systems	3,350		
iii)Centre for the Study of Regional Development	31,100		
iv)School of Life Sciences	11,07,080	11,74,400	
G.UGC Assistance at the level of DRs/SAP -			
School of Environmental Sciences Advance	5,71,308		
	1,12,896	6,84,204	
H.Upgradation/Augmentation of Computer Centre		9,67,703	
I.Bio-informatic Centre(BIC) (Equipment)		90,977	
TOTAL - 1 - EQUIPMENTS		2,88,18,888	

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**RECEIPTS****(Figures in rupees)****IV. COMBINED ENTRANCE EXAMS FOR  
BIO-TECHNOLOGY COURSES -**

(Sale of Admission forms/  
Entrance Examination fees  
etc.)

**84,69,555****V. MISCELLANEOUS RECEIPTS -****1) BIO-INFORMATICS CENTRE -**

(Short term training programme  
in Bio-informatics)

**5,000****ii) ACADEMIC STAFF COLLEGE**

(Registration fee towards  
participant cost)

**3,15,500****3,20,500****VI. INVESTMENT ENCASHED****7,13,96,100****GRAND TOTAL****19,62,18,194**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**B. OTHER CAPITAL EXPENDITURE - contd.****2. BOOKS AND JOURNALS -**

i) Central Library	18,91,734	
ii) Potential for Excellence (UGC)	75,61,215	
iii) Bio-technology Programme	1,34,102	
iv) Gulf Studies	97,737	
v) Soviet Studies	1,25,234	
vi) Women's Studies Scheme	49,093	
vii) DSA/DRs/SAP Programme -		
a. Centre for Study of Social Systems	2,56,466	
b. Centre for Historical Studies	2,00,774	
c. Zakir Hussain Centre for Educational Studies	39,141	
d. School of Life Sciences	1,02,593	
e. School of Physical Sciences	31,949	
viii) COSIST - School of Physical Sciences	2,04,445	
ix) Bio-informatic Centre (BIC)	20,776	
x) BIC- One year Diploma Course	65,364	
xi) Remedial Coaching Courses for SC/ST	70,681	1,09,11,304
<b>3. FURNITURE -</b>		
Centre for Study of Social Systems		19,585
<b>TOTAL-B-OTHER CAPITAL EXPENDITURE</b>		<b>3,97,49,777</b>
<b>TOTAL - SECTION ( A + B )</b>		<b>8,54,64,454</b>
<b>INVESTMENT OF FUNDS</b>		<b>4,25,00,000</b>
<b>CLOSING BALANCE</b>		
i) Imprest	5,000	
ii) Cash in Bank	6,82,48,739	6,82,53,740
iii) Cash in Hand	1	

**GRAND TOTAL****19,62,18,194**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**BAPF-115-EARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

Opening Balance -		
Earmarked Fund Account		
Bank	8,96,43,262	
Genetic Engg. Unit Account		
Bank	1,37,070	
Exim Bank Library Account	1,97,123	
Welfare State Systems	1,90,048	
SBI R & D Fund Account	6,556	9,01,74,059
<b>I. SPECIFIC PURPOSES</b>		
A. University Grants Commission		23,92,678
B. Government of India -		
i) Genetic Engg. Unit		6,004
ii) Other Project		6,03,40,119
C. Foreign Bodies/Govts. -		
i) Swiss Agency for Development & Corporation		4,29,000
ii) Potts Memorial Foundation		2,043
iii) Indo US Project (USDA)		1,09,768
iv) Ford Foundation		1,96,38,085
v) Volks Wagon		6,63,837
vi) UNDP - TIFAC		57,500
vii) European Economic Commission		12,86,737
viii) Insted of Nuclear Weapons		48,038
ix) Indian Council for Research on International Economic Relation		10,23,257
x) Wellcome Trust		25,88,403
xi) U.N.E.S.C.O.		42,13,336
xii) Embassy of Sultanate of Oman (Arabic/Govt. Studies)		9,49,352
xiii) Indo French (IFCPAR)		4,71,000
xiv) Centre for Ecology and Hydrology		3,18,335
xv) Italian Embassy		1,80,684
xvi) International Emerging Trends of Cancer Research		3,02,427
xvii) Sussex University		1,47,138
xviii) Korean Foundation		1,00,240
xix) Canadian Deptt. of Foreign Affairs & International Trade		3,27,317
xx) Shastri Indo-Canadian Institute		2,45,000
xxi) International Food Policy Research Institute		35,000



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-FARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

PAYMENTS		(Figures in rupees)
SPECIFIC PURPOSES -		
A. University Grants Commission -		
a. Salaries	7,52,699	
b. Other charges	17,73,177	
c. Non-recurring	1,58,677	
d. Non-recurring (Books)	57,303	27,41,856
B. Government of India -		
(i) Genetic Engg. Unit -		
Recurring		-
(ii) Other Projects -		
a. Salaries	58,61,534	
b. Other charges	2,37,09,809	
c. Non-recurring	98,91,272	
d. Advance	76,31,420	4,70,94,535
C. Foreign Bodies/Govts. -		
Ford Foundation -		
a. Salaries	3,64,400	
b. Other charges	18,00,041	
c. Non-recurring (Books)	15,417	
d. Non-recurring	4,69,980	26,49,838
U.N.E.S.C.O. -		
a. Salaries	1,90,694	
b. Other charges	2,81,138	
c. Non-recurring	41,000	5,12,832
European Economic Commission -		
a. Salaries	1,44,032	
b. Other charges	8,11,391	
c. Non-recurring	15,15,244	24,70,667
Shastri Indo-Canadian Institute		
a. Salaries	28,530	
b. Other charges	2,13,269	2,41,799
Australian High Commission		
		30,109
Italian Embassy		
		1,99,388
Wellcome Trust -		
a. Recurring	7,64,771	
b. Non-recurring	19,54,836	
c. Advance	1,46,640	28,66,247
French Embassy -		
a. Recurring	46,129	
b. Non-recurring	16,518	
c. Non-recurring (Furniture)	9,331	71,978
Volks Wagon		
		8,02,619
Centre Disease Control		
		4,39,827
Chiled Labour Social Enclusion		
		33,427
International Food Policy Research Institute		
		1,45,000
Sussex University		
		1,47,138
University of Washington		
		36,803

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

**1. SPECIFIC PURPOSES - contd.****D. Other Bodies -**

1) Council of Scientific & Industrial Research	22,67,147.
ii) Indian Council of Social Sciences Research	9,06,393
iii) Indian Council of Medical Research	1,13,86,986
iv) Inter University Consortium	58,256
v) Indian National Science Academy	15,000
vi) Indian Council of Historical Research	45,000
vii) Centre Pollution Control Board	2,40,000
viii) Indian Council of Agriculture Research	17,47,243
ix) Administrative Over Head charges	54,17,105
x) Rehabilitation Council of India	35,000
xi) Glacir Research Group	5,000
xii) Sr. Venkateshwara College	60,000
xiii) National Council for Promotion of Urdu Language	16,250
xiv) Madras School of Economics	2,13,605
xv) Conference on Celluler Molecular Biology	27,000
xvi) Rajasthan State Mines & Mineral Ltd.	67,000
xvii) Tata Education Trust	26,00,000
xviii) M/s Shasian Chemicals Drugs Ltd.	5,42,125
xix) M/s Shantha Biotechnics (P) Ltd.	4,66,666
xx) Winrock Netcom.	7,82,304
xxi) TARI ( XV Genetics Congress)	50,000
xxii) Society for Innovation & Development Centre	2,50,000
xxiii) National Agriculture Technology Project	2,62,780
xxiv) Power Finance Corporation	39,084
xxv) Govt. of Pandicherry	1,28,800
xxvi) All India Council for Technical Education	15,50,000

**II. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS -****A. University Grants Commission**

11,19,426

**B. Government of India**

93,54,641

**C. State Government**

9,40,679

**D. Other Bodies -**

1) Council of Scientific & Industrial Research	1,05,83,841
ii) Indian Council of Social Sciences Research	22,82,675
iii) Indian Council of Historical Research	10,61,600
iv) Indian Council of Medical Research	5,70,356

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

<b>C. Foreign Bodies/Govts. - contd.</b>		
Korean Foundation -		
a. Salaries	2,27,148	
b. Other charges	56,250	2,83,398
Indian Council of Research on Economic Relation		7,10,458
World Television Broadcasting		
a. Recurring	27,521	
b. Non-recurring	2,44,908	2,72,429
Swiss Agency for Development and Corporation		2,66,357
Centre of Ecology and Hydrology		2,08,044
U N D P		39,072
Canadian High Commission		3,42,551
International Emerging Trends of Cancer Research		5,06,071
Insted of Nuclear Weapons		36,180
UNIFEM -		
a. Recurring	4,99,555	
b. Non-recurring	41,000	5,40,555
<b>D. Other Bodies -</b>		
i) Council of Scientific and Industrial Research -		
a. Salaries	8,46,737	
b. Other charges	19,86,479	
c. Non-recurring	1,74,126	30,07,342
ii) Indian Council of Social Sciences Research -		
a. Salaries	5,53,093	
b. Other charges	3,63,430	9,16,523
iii) Indian Council of Medical Research -		
a. Salaries	7,26,321	
b. Other charges	35,25,134	
c. Non-recurring	43,08,958	85,60,413
iv) Indian Council of Historical Research		36,000
v) Rehabilitation Council of India		35,000
vi) Payment out of Over Head Charges -		
a. Salaries	35,704	
b. Other charges	12,53,112	
c. Maintenance Account	1,15,00,000	1,27,88,816
vii) Institute of Development Studies		28,830
viii) Indian Council of Promotion of Urdu Language		15,188
ix) Panacea Biotech. Consultancy Project		44,242
x) Centre Pollution Control Board		1,85,030
xi) Power Finance Corporation		37,000

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-III-EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**D. Other Bodies - contd.**

xii) Inter University Consortium		79,783
xiii) National Agriculture Technology Project -		
a. Salaries	4,89,761	
b. Other charges	20,31,275	
c. Non-recurring	8,65,437	33,57,473
xiv) Govt. of Pandicherry		14,730
xv) M/s Hindustan Lever Ltd.		11,024
xvi) Sh. Venkateshwara College		25,000
xvii) Society for Immvation and Development Centre		1,52,385
xviii) Indian National Science Academy		20,214
xix) Winrock Netcom.		
a. Salaries	1,44,660	
b. Other charges	5,04,966	6,49,626
xx) Workshop (Pvt.)		2,580
xxi) Madras School of Economics		2,10,051
xxii) Industrial Project		1,97,782
xxiii) Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.		7,160
xxiv) Dabur Research Foundation		5,29,968
xxv) Shasian Chemicals and Drug Ltd.		95,861
xxvi) Prof. S.I. Hasnain (Seminar)		40,000
xxvii) Dr. M.C. Paul (Seminar)		14,053

**II. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS -**

A. University Grants Commission	7,70,493
B. Government of India	87,18,156
C. State Governments	7,72,953
D. Other Bodies -	
i) Indian Council of Social Sciences Research	20,13,048
ii) Council of Scientific & Industrial Research	81,59,816
iii) Indian Council of Historical Research	9,92,101
iv) Indian Council of Medical Research	8,03,096
v) Jawahar Bhawan Trust	1,27,193
vi) Indian National Science Academy	15,000
vii) Prime Minister Aid Fund	1,425
viii) Rotary Foundation	2,700
ix) Indian Council of Philosophical Research	77,707
x) All India Council of Technical Education	52,560

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-III-EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT

RECEIPTS

(Figures in rupees)

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**D. Other Bodies - contd.**

xi) G. Parthasarathy (SC/ST)	76,661
xii) World Health Organisation	93,900
xiii) Sunchan National University, Korea	11,06,140
xiv) National Service Scheme	45,846
xv) Bio. Park Programme	10,000
xvi) Social Justice and Empowerment	10,120

**III. PRIZES AND ENDOWMENTS -**

i) Jawaharlal Nehru Professorship (Chair on Environmental Law)	77,945
ii) MJK Thavraj Memorial Trust	17,331
iii) Juhl Prasad Award	2,000
iv) Dr. Refeal Fernadiz Award of Scholarship (CPS)	36,000
v) Dr. Ambedkar Chair -	
a. Salaries	2,90,159
b. Other charges	39,884
vi) R.B.I. Chair	2,35,917
vii) Rajiv Gandhi Foundation	1,84,666
viii) Com. H.L. Parwana	12,013
ix) Sanskrit Studies	14,661
x) Dr. Bindu Aggarwal	4,000
xi) Prof. A.N. Bhat	4,100
xii) Raman Pony Memorial Fund	8,000
xiii) Dr. Shiela Zurbrigg	2,000
xiv) Jai Surindra	24,000
xv) Sajjad Zaheer and Ragia Zaheer	12,000

**IV. INVESTMENTS -**

i) Prof. K.J. Mahale, CFS/SLL&CS	10,000
ii) R.B.I. Chair	50,00,000
iii) Nurul Hasan (Educational & Research Foundation)	5,00,000
iv) Ford Foundation (CL&GR)-Prof. Kuldeep Mathur	1,46,73,000
v) Centre for the Study of Social Systems, SSS.	1,00,000
vi) G. Parthasarathy (for SC/ST Students)	3,00,000

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

**II. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS - contd.**  
**B. Other Bodies - contd.**

v) Rotary Education Foundation	1,800
vi) Prime Minister Aid Fund	1,800
vii) All India Council of Technical Education	52,560
viii) Jawahar Bhawan Trust	1,20,000
ix) Bios Park Programme	45,000
x) Indian Council of Philosophical Research	60,865
xi) Ministry of Social Justice & Empowerment	10,120
xii) Sunchan National University, Korea	4,74,388

**III. PRIZES AND ENDOWMENTS -**

i) Interest earned	26,60,112
ii) Endowments	12,96,384

**IV. OTHER RECEIPTS -****A. Cultural Exchange Programme -**

Salary paid to Teachers appointed under various Cultural Exchange Programme.	15,09,544
--	-----------

<b>B. UGC-Research Scientists</b>	<b>49,80,497</b>
-----------------------------------	------------------

**C. Interest earned on Investments -**

i) Out of Administrative Over Head Charges	46,667
ii) Out of Earmarked Fund Account	24,27,119

Interest earned on Saving Bank Account (EMF Account)	2,19,370
--	----------

**V. EXIM BANK LIBRARY ACCOUNT/WELFARE STATE  
 SYSTEMS DEVELOPMENT AND CHALLENGES ACCOUNT -**

Interest earned on Saving Bank Account	16,056
--	--------

<b>VI. SBI - R &amp; D FUND ACCOUNT (GRANT)</b>	<b>1,49,310</b>
---	-----------------

**VII. CENTRE OF APPLIED HUMAN GENITICS ACCOUNT -**

i) Grant	1,44,80,000
ii) Interest earned	2,47,239

<b>VIII. INVESTMENT ENCASHED</b>	<b>20,00,000</b>
----------------------------------	------------------

**GRAND TOTAL****27,19,60,150**



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-III-EARMARKED(SPECIAL)FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**V.OTHER PAYMENTS -****A.Cultural Exchange Programme -**

Salary paid to teachers appointed under various Cultural Exchange Programme(Salaries)	8,82,399
--	----------

**B.UGC-Research Scientists -**

a.Salaries	28,10,114
b.Other charges	2,11,638

**VI.EXIM. BANK LIBRARY ACCOUNT -**

Non-recurring (Books)	1,29,761
-----------------------	----------

**VII.SBI R & D ACCOUNT -**

a.Salaries	45,500
b.Other charges	78,930
	1,24,430

**VIII.CENTRE OF APPLIED HUMAN  
GENITICS ACCOUNT -**

a.Recurring	13,67,996
b.Non-recurring -	
i)Books	54,602
ii)Equipments	1,11,59,015
iii)Advance	43,800
	1,26,25,413

**CLOSING BALANCE -**

Earmarked Fund Account	11,24,78,278
------------------------	--------------

**Genetic Engg.Unit A/c -**

Bank	1,43,074
------	----------

**Exim Bank Library Account -**

Bank	75,094
------	--------

SBI R & D Fund Account	31,436
------------------------	--------

**Welfare State Systems -  
Development & Challenges  
Account**

1,98,372
----------

**Centre of Applied Human  
Genitics Account**

21,01,826	11,50,28,080
-----------	--------------

**GRAND TOTAL**

27,19,60,150
--------------

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-IV-DEBT., DEPOSIT ETC. ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)

Opening Balance -		
Provident Fund	42,16,841	
Other Deposits	2,42,39,340	
House Building Fund	1,48,56,869	4,33,13,050
<b>I. DEBT</b>		
<b>II. DEPOSITS</b>		
Provident Fund -		
Employees' Subscriptions	8,87,29,438	
University Contribution	29,53,812	
Interest adjusted to		
Subscribers' account		
during the year.	5,36,32,111	
Investment encashed	11,28,79,713	
Interest earned on investment	4,36,18,342	30,18,13,416
<b>III. STUDENTS' FUND -</b>		
Students' Aid Fund	67,543	
Extra Curricular Activities fees	2,30,496	
Students' Security Deposits	65,530	
Hostel Security Deposits	9,860	
Other Deposits (Library		
Deposits, Misc. Deposits etc.)	6,400	3,79,829
<b>IV. OTHER FUNDS -</b>		
VC's Discretionary Fund		1,61,850
<b>V. OTHER DEPOSITS -</b>		
Earnest Money, Security Deposits		15,88,915
<b>VI. RESERVE FUND -</b>		
Interest earned on Deposit		
Reserve Fund		39,891
<b>VII. OTHER RECEIPTS -</b>		
Refund of House Building Advance	66,03,607	
Interest earned on House Building		
Advance Fund	34,39,374	
Refund of Conveyance/Computer		
Advance	53,97,943	
Interest earned on Saving		
Bank Account	36,124	

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-IV-DEBT., DEPOSITS ETC. ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**I. DEBT****II. DEPOSITS**

## Provident Fund -

Advances/Withdrawals/Final  
Payments 8,43,19,805

Final payment of University  
Contribution 31,95,280

Interest paid to the credit  
of the Subscribers' Account 5,36,32,111

Investments 16,01,90,127 30,13,37,323

**III. STUDENTS' FUND -**

Students' Aid Fund 2,01,232

Extra Curricular Activities fees 1,12,805

Students' Security Deposits 40

Hostel Security Deposits 15,750

Other Deposits (Library  
Deposits, Misc. Deposits etc.) 2,000 3,31,827

**IV. OTHER FUNDS -**

VC's Discretionary Fund 91,590

**V. OTHER DEPOSITS -**

Earnest Money, Security Deposits 9,96,516

**VI. OTHER PAYMENTS :**

House Building Fund Advance 1,82,85,219

Conveyance/Computer Advance 45,90,405

Payment of premium of LIC on  
account of Group Insurance  
of Staff members. 47,64,895

Payment of LIC Group  
Insurance Claim 33,24,323

Research Activities and  
Special Lectures 10,000

Hiring of Sports Facilities 12,113

**Alumni Association Fund (ASC) -**

a. Recurring 5,92,790

b. Non-recurring (Equipment) 1,25,000

DNA Sequencing Facility (SGMM) 2,880

Road/Foot path restoration (MTNL) 1,19,325

Short term Courses (Computer Centre) 25,804 3,18,52,754

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-IV-DEBT.,DEPOSITS ETC. ACCOUNT

## RECEIPTS

(Figures in rupees)

## VIII.OTHER RECEIPTS - contd.

Group Insurance Subscription	48,00,332	
Amount received in respect of LIC Group Insurance Claim	36,31,609	
Central Instruments Facilities (CIF - SLS)	11,000	
Hiring of Sports facilities	40,072	
Alumni Association Fund - ASC	3,83,253	
DNA Sequencing facility (At SCMM)	26,400	
Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (on account of Road restoration charges)	80,925	
Interest earned on -		
i) Investment	7,99,685	
ii) Saving Bank Account	6,26,982	2,58,77,306

## IX.CORPUS FUND ACCOUNT -

Recognition fees/Affiliation charges(Recognised Institutions)	31,00,000	
Other Sources	35,23,541	
Interest earned on Investment/ Saving Bank Account	33,23,236	99,46,777

## X.INVESTMENT ENCASHED -

i) Deposit Account	57,14,209	
ii) Corpus Fund Account	2,63,00,837	3,20,15,046

GRAND TOTAL

41,51,36,080

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-IV-DEBT., DEPOSITS ETC. ACCOUNT**

**PAYMENTS****(Figures in rupees)****VII. UTILISATION OF PROVIDENT FUND  
CONTRIBUTION (University share) -**

Refund of Unspent balance 21,92,370

**VIII. CORPUS FUND ACCOUNT -**

a. Recurring	5,19,563	
b. Non-recurring	3,91,452	
c. Non-recurring (Advance)	46,258	
d. Refunded to Maintenance Account	58,81,000	68,38,273

**IX. INVESTMENT OF FUNDS -**

i) Deposit Account	59,00,000	
ii) Corpus Fund Account	3,20,00,000	3,79,00,000

**CLOSING BALANCE +**  
Cash in Bank

3,35,95,427

**GRAND TOTAL**

**41,51,36,080**

---

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-V-FELLOWSHIP ACCOUNT

---

## RECEIPTS

(Figures in rupees)

## Opening Balance -

Cash in Bank

45,88,799

## I. Grants -

University Grants Commission  
(JRF under 'At any one given  
time basis' Scheme)

4,00,00,000

## II. Interest earned on -

i) Saving Bank Account

1,74,200

ii) Investment

13,92,592

15,66,822

## III. Investment encashed

3,03,53,063

## GRAND TOTAL

7,65,08,684

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-V-FELLOWSHIP ACCOUNT**

---

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**I. JRF under 'At any one given  
time basis' Scheme -**

1) Fellowship	2,68,98,079	
ii) Congingencies	13,20,316	
iii) House Rent Allowance	4,39,946	2,86,58,341

**II. Investment of fund**

3,00,00,000

**CLOSING BALANCE -**

Cash in Bank

1,78,50,343

**GRAND TOTAL**

7,65,08,684

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003  
PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

Head of Account	EXPENDITURE (Figures in rupees)
1.Administration	4,60,40,423
2.Common Services and General Charges	9,23,37,528
3.Academic Programmes	18,35,23,173
4.Examinations	14,66,064
5.Library	2,09,69,953
6.Students' Facilities	90,06,974
7.Scholarships	30,31,830
8.Students' Hostels	2,27,70,514
9.Publications	13,90,641
10.Other Departments	6,89,95,995
11.Miscellaneous	2,80,26,321
12.Provident Fund and Pension	7,28,22,564
13.Payment of Arrears (Revision of pay on account of Fifth Pay Commission)	1,88,61,045
14.Transferred to Statement of Assets and Liabilities - On Revenue Account (Excess Income over Expenditure)	5,54,61,984
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>62,47,05,009</b>



**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-I-MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	INCOME (Figures in rupees)
1. University Grants Commission (On Revenue Account)	55,89,02,825
2. Fees from Students	1,15,37,413
3. Hostels	6,89,485
4. Income from Land and Buildings	1,02,11,956
5. Publications (Royalties)	1,68,231
6. Sale of Admission forms and Entrance Exams Fees	1,98,63,341
7. Interest earned	25,22,568
8. Miscellaneous Receipts/Revenue	2,08,09,190
 GRAND TOTAL	 62,47,05,009

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	EXPENDITURE (Figures in rupees)
1. Academic Programmes -	
a. Schools	21,60,560
b. Miscellaneous Other Academic Activities	97,28,692
c. Other Individual Scheme	66,04,561
2. Combined Entrance Examination for Bio-technology courses	19,18,581
 GRAND TOTAL	 2,04,12,394

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2002-2003**  
**PART-II-DEVELOPMENT(PLAN)ACCOUNT**

Head of Account	INCOME (Figure in rupees)
1.Grants -	
University Grants Commission (On Revenue Account)	38,50,807
2.Other Organisations (On Revenue Account)	42,68,111
3.Sale of Admission forms/ Examination fees for Bio- technology Courses/Bio- informatics Courses	84,69,555
4.Interest earned on - (Saving Bank Account)	10,04,847
5.Miscellaneous Receipts	3,20,500
6.Transferred to Statement of Assets and Liabilities - On Revenue Account (Excess expenditure over Income)	24,98,574
 GRAND TOTAL	 2,04,12,394

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2003

As on 31.3.2002 Rs	LIABILITIES	As on 31.3.2003 Rs
1,16,34,11,259*	Capitalised value of Grants	1,31,69,39,935*
6,22,70,860	Grants utilised for payment of advances	4,15,61,586
	Grants under utilisation -	
11,03,09,004	i) On Revenue Account	16,91,53,414
15,25,57,226	ii) On Capital Account	16,70,91,311
	Gifts and Donations -	
24,91,377	i) Gifts and Donations	24,86,377
1,19,49,316	ii) Value of Books donated to the University	1,22,38,162
5,48,61,217	Endowments and Prizes (Corpus)	5,78,53,037
10,53,97,461	Balance of Earmarked (Special) Fund A/c	14,58,42,662
2,99,41,862	Balance of Fellowship Account	4,28,50,343
2,75,11,593	Deposit Account balances (Other than Provident Fund Account, Depreciation Reserve Fund Account etc.)	2,74,53,012
11,05,208	Interest earned on Deposit Reserve Fund	11,45,099
7,72,86,805**	House Building Fund	8,07,26,179@
1,54,72,973	Conveyance Advance Fund	1,55,09,097
3,45,05,245	Corpus Fund	3,76,13,749
	Provident Fund Account -	
35,51,05,341	i) General Provident Fund	40,70,85,918
8,51,40,213	ii) Contributory Provident Fund	9,09,59,912
3,25,60,337	iii) Interest	2,25,46,568
32,079	Receipts/Recoveries Awaiting Adjustment	21,003

\*Includes a sum of Rs.33.33 lakhs received from IIT, Rs.28.33 lakhs received from NCERT towards the cost of construction of Kendriya Vidyalaya Building and Rs. 9.66 lakhs received from Kendriya Vidyalaya Sangathan towards the cost of construction of 2 quarters for KVS/Furniture.

\*\* Includes Rs.3,83,33,805/- on account of interest earned on House Building Fund.

@ Including Rs.4,17,73,179/- on account of interest earned on House Building Fund.

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2003

As on 31.3.2002 Rs	ASSETS	As on 31.3.2003 Rs
	DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CAMPUS -	
	Land -	
2,44,26,996	1)At New Campus	2,44,26,996
26,676	ii)At Ferozeshah Road	26,676
	Buildings -	
	1)At New Campus -	
28,88,69,592	a.Completed	28,88,83,465
17,04,73,216	b.Work in progress	21,03,53,789
21,07,201	ii)At Ferozeshah Road	21,07,201
7,99,71,944	External Services	8,42,28,846
1,04,351	Tools and Plants	1,04,351
2,67,61,977	Furniture and Furnishing (excluding Library)	3,07,71,086
33,50,44,343	Equipments	41,44,40,858
10,50,980	Furnishing of Language Lab./CRS Installation of Japanese Lab.	10,50,980
	Library	
22,73,48,629	1)Books and Journals	25,32,48,273
84,10,734	ii)Furniture	87,73,414
4,37,667	iii)Microfilms & Reprographic equipment	4,37,667
81,76,587	Telephones	81,76,587
46,41,061	University vehicles	46,34,287
	Advance of Capital nature paid out of -	
66,25,349	1)Maintenance(Non-Plan)Account	93,40,835
5,39,79,739	ii)Development(Plan)Account	2,43,22,757
16,65,772	iii)Earmarked(Special)Fund Account	78,51,736
-	iv)Deposit Account	46,258
7,00,81,331	Investment of Endowments/EMF Account balances	8,86,64,331
46,85,89,050	Provident Fund Account(Investment)	51,58,99,464
12,13,96,100	Investment out of Plan Account	9,25,00,000
4,91,271	Festival Advance	4,64,921
1,32,45,569	Investment out of Deposits	1,34,31,360
1,85,00,000	Investment out of House Building Fund A/c	1,85,00,000
2,53,53,063	Investment out of Fellowship Account	2,50,00,000
2,64,75,837	Corpus Fund	3,21,75,000
	Advances -	
4,39,29,935	1)House Building Advance	5,56,11,547
1,46,31,117	ii)Conveyance Advance	1,38,23,579

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2003

As on 31.3.2002

LIABILITIES

As on 31.3.2003

2,32,19,09,376

TOTAL

2,63,90,77,364


## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2003


As on 31.3.2002  
Rs


## ASSETS

As on 31.3.2003  
Rs

	CLOSING BALANCE -	
98,175	Imprest	1,05,800
	Cash in Bank/Hand -	
	Maintenance(Non-Plan)Account -	
98,37,665	i)University Receipts	2,63,25,130
10,37,68,412	ii)Grants from UGC	14,86,27,580
2,73,13,129	Development(Plan)Account	6,82,48,740
9,01,74,059	Earmarked(Special)Fund Account	11,50,28,080
4,33,13,050	Deposit Account	
	(including Provident Fund, House	
	Building Advance A/c, Students'	
	Account, Conveyance Advance A/c	
	and Corpus Fund Account)	3,35,95,427
45,88,799	Fellowship Account	1,78,50,343
2,32,19,09,376	TOTAL	2,63,90,77,364

  
(G.C. DHONDIYAL)  
ASST. FINANCE OFFICER(D)  
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

  
(A.K. MALIK)  
DEPUTY FINANCE OFFICER  
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

  
(S. NANDKEOLYAR)  
FINANCE OFFICER  
J.N.U.

**Audit Certificate**

I have examined the Receipt and Payment Account, Income and Expenditure Accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March 2003 and the statement of Assets and Liabilities as on 31<sup>st</sup> March 2003 of Jawaharlal Nehru University, Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts and the statement of Assets and Liabilities are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Jawaharlal Nehru University, Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the University and subject to the observations in the appended Audit Report which, *inter alia*, contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years: -

1. Receipts under maintenance grant were diverted to Corpus Fund in violation of the guidelines issued by the UGC for creation of such a fund. (Para. 2.2)
2. Sponsoring agency wise project accounts prepared did not reflect details of sub-head wise expenditure of each project. Further, no consolidated receipt and payment account of each project was prepared and appended to the annual accounts. (Para 2.8)
3. Unutilised/unspent grants totalling Rs. 31.49 lakh under closed project was lying for periods ranging from 4 years to more than 12 years, which have not been refunded to institutions giving the grant. (Para 2.7)
4. Basic records like Land and Building Register and Assets Register were not maintained properly. (Para 2.4).
5. The bank reconciliation statement included discrepant items namely excess debits, excess credits, which related to period as back as 1980-81 for which proper follow up action and clearance of the items is required. (Para 2.10)

Dr. A. K. BANERJEE  
Director General of Audit  
Di Central Revenues

Place: New Delhi

Date: 8.6.2004



## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, 1951, 2005

New Delhi, the 1st June 2005

**(Chartered Accountants)**

**No. 1-CA(7)/84/2005 :** The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same for consideration by the Council within the period so specified above to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the said Council.

**Draft Regulations**

1. These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2005.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, in regulation 48, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) (a) Every principal engaging an articled clerk, who has passed the Professional Education (Examination – II) and has also successfully completed computer training programme as specified under regulation 45(b)(iii), shall pay to such clerk every month a minimum monthly stipend at the rates specified in the table below depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated;-

Table

Classification of the normal place of service of the articled clerk (1)	During the first year of training (2)	During the second year of training (3)	During the remaining period of training (4)
(a) Cities/towns having a population of twenty lakhs and above.	Rs.1000/-	Rs.1250/-	Rs.1500/-
(b) Cities/towns having a	Rs.750/-	Rs.1000/-	Rs.1250/-

	population of four lakhs and above but less than twenty lakhs.			
(c)	Cities/towns having a population of less than four lakhs	Rs.500/-	Rs.750/-	Rs.1000/-

(b) Every principal engaging an articled clerk, who has passed the Foundation examination or Graduation examination, as the case may be, and has also been registered as an articled clerk upto 30<sup>th</sup> June, 2004 or 30<sup>th</sup> September, 2001 respectively, shall pay to such clerk every month a minimum monthly stipend at the rates specified in the table below depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated:

Table

Classification of the normal place of service of the articled clerk (1)	During the first year of training (2)	During the second year of training (3)	During the remaining period of training (4)
(a) Cities/towns having a population of twenty lakhs and above.	Rs.450/-	Rs.600/-	Rs.800/-
(b) Cities/towns having a population of three lakhs and above but less than twenty lakhs.	Rs.300/-	Rs.450/-	Rs.600/-
(c) Cities/towns having a population of less than three lakhs	Rs.200/-	Rs.300/-	Rs.450/-

Provided that an additional stipend of Rs 300/- per month shall be paid to an articled clerk on his passing the Intermediate examination, from the first day of the month following the date of declaration of the result of the said examination held under these regulations, irrespective of above classification of rates of stipend with reference to cities/towns.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a) or (b), an articled clerk covered under clause (b), on his passing the Professional Education (Examination - II) under these regulations, shall be eligible for a minimum monthly stipend at the rates specified in the Table under clause (a) from the first day of the month following the date of declaration of the result of the said examination, depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated.

**Explanation 1.-** For the purposes of this regulation, no stipend shall be payable for any excess leave taken.

**Explanation 2.-** For the purposes of determining the rates at which stipend is payable under this regulation, the period of articulated training of the student under any previous principal or principals (not being any such period prior to 1<sup>st</sup> July, 1973) shall also be taken into account.

**Explanation 3.-** For the purposes of this regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India."

Dr. ASHOK HALDIA  
Secy.